



To,

The Manager Listing Department BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Dear Sir/Madam,

Subject: <u>Newspaper advertisement of Postal Ballot Notice pursuant to Regulation 47 of SEBI</u> (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir / Ma'am,

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration Rules), 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Company is providing voting facility (by postal ballot and E-voting) to the Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Postal Ballot Notice.

Pursuant to Rule 20(3) (v) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has published an advertisement in "Financial Express" and "Jansatta" newspaper dated 24th August, 2021.

Kindly take above information on your record.

For and on behalf of ADVITIYA TRADE INDIA LIMITED For Advitiya Trade India Limited

Director

Sandeep Goyal Managing Director DIN: 07762515

Enclosed-Newspaper

Reg. Office : 2814/6, Chuna Mandi, Paharganj, New Delh-110055 Tel. : 011-49536409, 23562386 | Cin : U74999DL2017PLC314879 E-mail : info@advitiyatrade.com, | Website : www.advitiyatrade.com

FINANCIAL EXPRESS

28

PUBLIC NOTICE Before The National Company Law Tribunal, New Delhi Bench III In the Matter of Indu Kumar & Ors. VS Saha Infratech Private Limited (IA NO. 2331 OF 2021) (CP No. (IB) 1781 OF 2018)

NOTICE OF SERVICE

ANIEL KUMAR SAHA Director of the Saha Infratech Private Limited E-13, Sector - 30, Noida - 201303, Uttar Pradesh

NEETA SAHA

PRIYANK BHATTAR

W/o Aneil Kumar Saha G-22, Sector - 27, Noida - 201301, Uttar Pradesh

KMP of Saha Infratech Pvt, Ltd. 175- Pashchim Vihar Ext. Delhi -110063

Director of the

Uttar Pradesh

ASHOK SIROHI KUMAR

Saha Infratech Private Limited

E-13, Sector - 30, Noida - 201303,

Whereas it has been proved to the satisfaction of the National Company Law Tribunal New Delhi Bench II that the Applicants above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation is hereby issued against him/them and should appear personally or through their counsel on 02.09.2021 before National Company Law Tribunal, New Delhi Bench II at 10.30 am.

Take notice that, in default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in his/their absence according to law.

Sd/-Shiv Nandan Sharma

Resolution Professional for Saha Infratech Private Limited Registration No.: IBBI/IPA-001/ IP-P00384/2017-2018/10641 Date: 24/08/2021 129 Navieevan Vihar, Ground Floor, New Delhi- 110017 Place: New Delhi

ADVITTYA TRADE INDIA LIMITED

CIN: L74990DL2017PLC314879 Regd. Office: 2814/6, Ground Floor, Chuna Mandi, Pahargani, New Delhi- 110055 E-mail ID: goyals2729@gmail.com Website: www.advitiyatrade.co

POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the company has on Monday, August 23, 2021 completed the dispatch of the postal ballot notice, along with the postal ballot form through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants as on Friday, August 20, 2021 and through physical mode, along with a postage prepaid self-addressed Business reply envelope to the other members (whose email IDs are not registered) for seeking approval of the shareholders of the Company by postal ballot, including voting by electronic means or, for the following matter:

Description of the Resolution

Increase In Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company.

2 To Consider Issue Of Bonus Shares

No.

3 To Approve Name Change Of The Company

The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting through postal ballot shall commence from Tuesday, 24th August 2021 and shall end on Wednesday September 22, 2021 (05:00 PM)and for electronic mode voting shall commence from Tuesday, 24th, August 2021 and shall end on Wednesday September 22, 2021 (05:00 PM).

The Board of Directors has appointed M/s. KMPM & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot form should reach

IMPORIANT

whilst care is taken prior to acceptance advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



Head Office: Mangaluru-575002 CIN : L85110KA1924PLC001128 Asset Recovery Management Branch Phone : 011-40591567, Ext.240 Mob:9319891680 8-B. First Floor, Raiendra Park. E-Mail : delhiarm@ktkbank.com Pusa Road, New Delhi-110060, Website: www.karnatakabank.com

SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guarantor (s that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured Creditors, the Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditors on 13.08.2021, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on 15.09.2021, for recovery of aggregate amount of Rs.3,73,75,340.36 (Rupees Three Crore Seventy Three Lakhs Seventy Five Thousand Three Hundred Forty and Thirty Six Paisa Only) along with future interest from 01.08.2021, plus cost, under PS Overdraft A/c No.5447000600110801 due to the Karnataka Bank Ltd. Savita Vihar, Branch-Delhi, Plot No.13, Near Sai Mandir, Main Road, Savita Vihar, Delhi-110092, the Secured creditors from (1) M/s Himgiri Sales(India), Represented by its proprietor, i) Mr. Deepak Kumar S/o Mr.Narendra Kumar, 674/675, Gali No.16, West Guru Angad Nagar, Laxmi Nagar

Delhi-110092 (2) Mr. Deepak Kumar S/o Mr. Narendra Kumar (3) Mrs. Kalpana W/o Mr.Deepak Kumar. Both 2 & 3 are residing at 674/675, Gali No.16, West Guru Angad Nagar, Laxmi Nagar Delhi-110092, being borrowers/guarantors/ co – obligants.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that piece and parcel free hold Residential/mixed use property bearing No.674/675 constructed on plot measuring 123 Sq. Yard, out of Khasra No.52/3, having old No.52/9 situated in the abadi of west Guru Angad Nagar, Village Khureji Khas, Illagua Shahadara, Delhi 110092, belonging to Mr.Deepak Kumar. Boundaries: East: Property No.669, West: Property No.680 & 681, North : Road 25ft, wide, South : Property No.636

Reserve Price/Upset Price below which the property may not be sold: Rs. 2,81,09,000.00 Rupees Two Crores Eighty One Lakhs Nine Thousand Only)

Earnest money to be deposited/tendered: Rs.28,10,900.00 (Rupees Twenty Eight Lakhs Ter housand Nine Hundred Only)

The borrower's/mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset)

This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (1) of Rule (9) of Security Interest Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors)

For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's Website i.e. www.karnatakabank.com under the head "mortgaged assets for sale". he E-auction will be conducted through portal https://bankauctions.in/ on 15.09.2021 from 12:00 Pm to 1:00 pm with unlimited extension of 05 minutes. The intending bidder is required to register their name at https://bankauctions.in/ and get the user Id and password free of cost and et online training on E-auction (tentatively on 14/09/2021) from M/s.4closure, Flat No.102, Plot No.20, Amrutha Apartments, Mothinagar, Hyderabad-500018 Contact Person U. Subbarao, No.040-23836405, mobile 8142000062/63, E-mail: subbarao@bankauctions.in and info@bankauctions.in. For Karnataka Bank Ltd Date: : 23.08.2021 Place: Delhi Chief Manager & Authorised Officer



The facts of the matter were placed before this Committee for Identification of Wilfu Defaulters constituted in consonance with the RBI Guidelines. The Committee after going hrough facts of the matter and evidence on record, has concluded that event(s) of default/s has occured in the account which are wilful and substantial to classify you as "Wilfu Defaulters', inter alia for the following reasons:

Capacity to pay: As per CR prepared at time of sanction of loan, Net means of Borrower Shr Sanju Mohan is Rs. 1.13 Crore and that of Guarantor, Shri Aakash Sharma is Rs. 1.72 Crore. The Borrower is also earning net monthly salary of Rs. 1.45 lakhs as per Salary Slip for the month of January 2017. It depicts that despite having capacity to pay the Borrower and Guarantor are deliberately not repaying the dues of the Bank"

In case you feel aggreeved by the aforesaid conclusion of the "Committee", you may make a submission/representation, if you so desire, to the committee for consideration and show cause as to why you should not be classified as "wilful defaulter". You submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sen either to Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, East Wing, Punjab National Bank, Head Office, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 or through the Branch Manager, New Delhi Circle Sastra, 2nd Floor, Vikrant Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110008. If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you have othing to say in your defence against the conclusion of this Committee.

Please take note that pursuant to submission/non submission of your reply in response to the show cause notice, the committee shall proceed to pass an order with regard to declaration of the Wilful Defaulter as per the RBI Guidelines.

The show cause notice dated 21.01.2020 issued by the Branch Manager and further proceeding on the basis of the said notice stand withdrawn.

Members of the Committee for Identification of wilful defaulters

(JYOTI RANJAN RATH) (RAJEEV KHERA) (AGEY KUMAR AZAD) GENERAL MANAGER (SASTRA) GENERAL MANAGER (CREDIT) EXECUTIVE DIRECTOR

Form INC-26 [Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Company from one state to another.

Before the Central Government Regional Director, Northern Region B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND

In the matter of Ploutos Quant Research Capital Private Limited having its registered office at Plot No. 7, Sector 44, Gurugram, Haryana-122003..... Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-ordinary General Meeting held on Thursday, the 12th day of August, 2021 to enable the Company to change its registered office from the "State of Haryana" to the "State of Gujarat."

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his / her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, at -2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned

below: **Ploutos Quant Research Capital Private Limited** Regd. Office: Plot No. 7, Sector 44, Gurugram, Haryana-122003 For and on behalf of the Applicant

AASHAY HARLALKA Director Date: 24.08.2021 Place: Gurugram DIN: 07875639

(Incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT (NORTH REGION) NATIONAL CAPITAL **TERRITORY (NCT) OF DELHI** IN THE MATTER OF SUB-SECTION (4) OF SECTION 13 OF COMPANIES ACT, 2013 AND CLAUSE (A) OF SUB-RULE (5) OF RULE 30 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014 AND IN THE MATTER OF PROFICIENCY LEARNING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT 99, DSIDC, SHED, **O.I.A. PHASE NO.1, OKHLA NEW DELHI 110020** ... Petitioner

Form No. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies

Notice is hereby given to the Genera Public that the company proposes to make application to the Centra Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary General Meeting held on 21st August 2021 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory (NCT) of Delhi" to "State of Punjab".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/hei objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGC Complex. New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned above: For and on behalf of Applicant **Proficiency Learning Solutions Private Limited** Sd/-Saurav Sharma **Company Secretary** PAN: DGAPS4244B Date: August 24, 2021

Place: New Delhi

the Scrutinizer not later than 05:00 PM on Wednesday September 22, 2021 All members may kindly note that voting on the aforesaid resolution done through

e-voting/postal ballot forms after the aforesaid date shall not be considered valid. Any member who does not receive the Postal Ballot form may either send an email to or may apply to the registrar and Share transfer Agent of the Company/Company and obtain a duplicate postal ballot form. The notice of postal ballot has also been placed on the website of the company (i.e. www.advitivatrade.co).

The result of the voting by postal ballot will be announced on or before Friday September 24, 2021, at the registered office of the Company. The result will be displayed at the registered office and on the website of the company and intimate stock exchange on which the shares of the company are listed.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, shareholders are requested to contact, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area. Phase-I, New Delhi-110020, email: info@skylinerta.com By Order of the Board

Advitiya Trade India Limited Sandeep Goyal

Place: Delhi Date: 23.08.2021 Managing Director

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD Regd. Office : D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110048, Tel: 011-49025758, Fax: 011-41633812, CIN: L65929DL1991PLC043182 Website : jagsonpal.co.in, email : jagsonpalfinance@gmail.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 30th AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on 26th September, 2021, Sunday at 11.30 p.m. through Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with general circular dated January, 13 2021 read with circulars dated April 8, 2020, April, 13 2020 and May 5, 2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2020-2021 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositaries. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. If your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM along with annual report for FY 2020-2021 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depositary, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2020-2021 and login details for e-voting.

Physical Send a request to Registrar and Share Transfer Agent of the Company, MAS Services Limited at

Holding info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34,

2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 100020 alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.)

Demat Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process Holding advised by DP.

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2020-2021 will also be available on Company's website at www.jagsonpal.co.in and also on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. For Jagsonpal Finance & Leasing Ltd.

(Sumit Kumar Ghosh) Company Secretary & Compliance Officer

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH, 2ND FLOOR, AJEET COMPLEX, SAHARANPUR ROAD, DEHRADUN-248001

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 read with provision to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the State Bank of India (Secured Creditor), the **constructive**/ physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of State Bank of India, the Secured Creditor, will be sold on "As is Where is", As is What is" and Whatever there is" basis on below mentioned date, for recovery of under mentioned dues & further interest, charges and costs etc. as detailed below. The reserve price and EMD amount for each property has been furnished below. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India, the Secured Creditor's website Https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome//idapi/index.jsp

(Description of the immovable property with known encumbrances, if any)

Name of the Borrower(s)/Guarantor(s)	Details of Property	Dues as per 13(2) Notice for which property is being sold	(A). Reserve Price (in lakhs) (B). EMD (in lakhs) (C). Bid multiplier
M/s Xenium Care Science, Plot No. A- 1/B Sector 1 GC Sigaddi Growth Centre Kotdwar(UK) Mr. Ashutosh Bhardwaj (Proprietor) S/o Shri Vijendra Kumar Bhardwaj, Plot No. A-1/B Sector 1 GC Sigaddi Growth Centre Kotdwar, (U.K.) Also at: SD - 332, Shastri Nagar, Ghaziabad. 201002, Uttar Pradesh.	Plant & Machinery at Plot no. A- 1/B Sector 1 GC Sigaddi Growth Centre Kotdwar Factory in the name of Shri. Ashutosh Bhardwaj S/o Shri Vijendra Kumar Bhardwaj Sole proprietor of M/S Xenium Care Sciences	Rs. 53.21 Lakhs plus unapplied interest, legal charges & other charges. As per demand notice dated 01.04.2015. (Less Recovery Rs. 47.00 Lacs.)	(A). Rs. 11.20 Lakhs (B). Rs. 1.12 Lakhs (C). Rs. 0.50 Lakhs
Date & Time of E-Auction : 10.09.2021 Last Date and time of submission of l of property for E-Auction is 31.08.202 9650486279, 0135-2720081, 27200	EMD & DOCUMENTS at Branch is 0 1 between 2.00 pm to 5.00 pm. Cor	9.09.2021 up to 5.	00 pm. Inspection
Date : 23-08.2021 Place : Dehrad		rised Officer, State B	ank of India (SARB)

Orix Leasing & Financial Services India Limited Plot No. 94, Marol Co-operative Industrial Estate, Andheri Kurla Road, ORIX

Andheri (East), Mumbai- 400059 POSSESSION NOTICE

[RULE 8(1) SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002]

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LTD., under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Securit Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 9 of the Securit Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notices upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt o the said notice.

The Borrower(s)/Co-Borrower(s) having failed to repay the notice amount together with further interest & other charges, notice is hereby given to the Borrower(s)/Co-Borrower(s) & the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 9 of the said Rules on the belowmentioned dates

The Borrower(s)/Co-Borrower(s) in particular & the public in general are hereby cautioned not to deal with the property & any dealings with the property will be subject to the charge of ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LTD an amount mentioned in the demand notice together with further interest & other charges from the date of demand notice till the date of payment realization.

DESCRIPTION OF PROPERTIES	DATE OF DEMAND NOTICE	DATE OF SYMBOLIC POSSESSION	AMOUNT IN DEMAND NOTICE (RS.)
Building, Plot No- E-12 in Scheme- Janaki Vihar behind Heerapura	15-Jun-21	23-Aug-21	Rs. 3119646.39/-
All That Piece & Parcel of Land & Building, Plot No. D-270, Block-D, Sarvanand Marg, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan-302017	15-Jun-21	23-Aug-21	Rs 15243191.72/-
All That Piece & Parcel of Land & Building Plot No. 870 (old) 528 (new) Revenue Village Madri Paneriyan (Khasra no. 553 to 617 621 to 649 659 to 667 671 674 to 752 754 to 787 791 793 to 794 798 to 805 808 811 to 832 1848/776 Udaipur, Rajasthan- 313001	15-Jun-21	23-Aug-21	Rs. 2825459.88/-
	All That Piece & Parcel of Land & Building, Plot No- E-12 in Scheme- Janaki Vihar behind Heerapura Power House, Ajmer Road, Jaipur, Rajesthan- 302006 All That Piece & Parcel of Land & Building, Plot No. D-270, Block-D, Sarvanand Marg, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan-302017 All That Piece & Parcel of Land & Building Plot No. 870 (old) 528 (new) Revenue Village Madri Paneriyan (Khasra no. 553 to 617 621 to 649 659 to 667 671 674 to 752 754 to 787 791 793 to 794 798 to 805 808 811 to 832 1848/776 Udaipur,	DEMAND NOTICEAll That Piece & Parcel of Land & 15-Jun-21Building, Plot No- E-12 in Scheme- Janaki Vihar behind HeerapuraPower House, Ajmer Road, Jaipur, Rajesthan- 302006All That Piece & Parcel of Land & 15-Jun-21Building, Plot No. D-270, Block-D, Sarvanand Marg, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan-302017All That Piece & Parcel of Land & 15-Jun-21Building Plot No. 870 (old) 528 (new)Revenue Village Madri Paneriyan (Khasra no. 553 to 617 621 to 649659 to 667 671 674 to 752 754 to 787 791 793 to 794 798 to 805 808811 to 832 1848/776 Udaipur,	DEMAND NOTICESYMBOLIC POSSESSIONAll That Piece & Parcel of Land & 15-Jun-2123-Aug-21Building, Plot No- E-12 in Scheme- Janaki Vihar behind Heerapura Power House, Ajmer Road, Jaipur, Rajesthan- 30200623-Aug-21All That Piece & Parcel of Land & 15-Jun-2123-Aug-21Building, Plot No. D-270, Block-D, Sarvanand Marg, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan-30201723-Aug-21All That Piece & Parcel of Land & 15-Jun-2123-Aug-21Building Plot No. 870 (old) 528 (new) Revenue Village Madri Paneriyan (Khasra no. 553 to 617 621 to 649 659 to 667 671 674 to 752 754 to 787 791 793 to 794 798 to 805 808 811 to 8321848/776 Udaipur,

is hereby given, once again, below, together with further i due as on date of De	interest from the date(s) of Demand Notice till the emand Notices and security offered towa	e publication of this notice, the amounts indicated e date of payment. The detail of the Borrower(s), a ards repayment of loan amount are as a
Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of secured asset (immovable property)
Mr. Ved Prakash Bhardwaj Mr. Ankit Kumar Bhardwaj Mrs. Raj Rani (Prospect No 862756)	Rs. 28,36,092/- (Rupees Twenty Eight Lakh	All that piece and parcel of the property being: F
Mrs. Shashi Bala, Mr. Santosh Kumar (Prospect No 853396)	16-August-2021 Rs. 12,96,457/- (Rupees Twelve Lakh Ninety Six Thousand Four Hundred Fifty Seven Only)	All that piece and parcel of the property being Khasra No.904, Area Admeasuring 50 Sq. consiting of One Roan with terrace reights up Storey, Situated at abadi of Panchwati in the a Village, Bahta Hazipur Pargana Loni Distt. Gha U.P., Loni, Ghaziabad, 201102, Uttar Pradesh, In
Mr. Deepak Kumar Chauhan, Mrs. Braham Devi, Mr. Devender Kumar (Prospect No853139)	13-August-2021 Rs. 7,49,416/- (Rupees Seven Lakh Forty Nine Thousand Four Hundred Sixteen Only)	All that piece and parcel of the property Property No. 17A, Area Measuring 50 Sq. Yrds, Khasra No. 234 Situated In The Residential Known As Manoj Encalve Area Of Village Hajipur Pargana Loni Tehsil Distt. Ghaziaba Near Shiv Mandir, Up, Ghaziabad, Uttar Pradesh
Mr. Bharat Bhushan, Mrs. Kavita (Prospect No 864188)	16-August-2021 Rs. 28,14,689/- (Rupees Twenty Eight Lakh Fourteen Thousand Six Hundred Eighty Nine Only)	Total Area Measuring 2 Rakba 16 Biswanshi Khewat/Khata No. 676/959, Khasra No. 726 (2-0-16), Situated At Waka Muja Gurgaon Tehsil Zila Gurgaon (H.R.) 122001, Haryana, In
Mr. Arjun Singh, Arjun Traders, Mrs. Neelam (Prospect No 864707,923002)	Twenty Seven Lakh Nine Thousand Four Hundred Seventy Eight Only), Prospect No. 923002 Rs. 4,58,974/- (Rupees Four Lakh Fifty Eight Thousand Nine Hundred Seventy Four Only)	All that piece and parcel of the property Second Floor(i.e. H.No. SF-02 Middle Side) Fu Floor, Built on Plot Bearing Pvt. No. 1 & 2, roof/terrace rights, area measuring 80 Sq. Y
Mr. Mahesh Chand, Mrs. Pushpa Devi (Prospect No 900728)	Thousand Five Hundred Ninety Three Only)	630, Gali No7, Ashok Nagar, Vill. Saboli, Sh Pincode: 110093, Delhi, India.
Mr. Bhupendra Kumar, Mrs. Anita Devi (Prospect No 910343, 927651, 927653, 944439)	Twenty One Lakh Forty Thousand Three Hundred Two Only), Prospect No. 927651 Rs. 8,99,185/ - (Rupees Twenty One Lakh Forty Thousand Three Hundred Two Only), Prospect No. 927653 Rs. 1,11,802/- (Rupees One Lakh Eleven Thousand Eight Hundred Two Only), Prospect No. 944439 Rs. 4,20,830/- (Rupees Four Lakh Twenty Thousand Eight Hundred Thirty Only)	68.56 sq. mtrs., Out Of Kh No. 15/36 Village Khas Radhey Shyam Park Extn Illaqa Sh Pincode: 110051, Delhi, India.
Mrs. Namita Sen, Grammy Solutions, Mr. Tamal Sen (Prospect No 937461, 938425)	Prospect No. 937461 Rs. 15,74,850/- (Rupees Fifteen Lakh Seventy Four Thousand Eight Hundred Fifty Only), Prospect No. 938425 Rs. 1,06,246/- (Rupees One Lakhs Six Thousand Two Hundred and Forty Six Only)	542 sq ft on Property No 612, A Block, Khasra Situated at Extended Abadi of Lal Dora of Devli, New Delhi
Mr. Vikram Tuli, M/s Vikram Tuli Mrs. Sarableen Kaur, Mr Inderjeet Singh (Prospect No 947876)		All that piece and parcel of the property be Shop No, Lg-B, 7, 8, 9, One Shop On Lower Floor, Area Admeasuring 900 Sq. Ft., Prope 17/15-A, (Rhs Portion, Without Roof Rights Market, Tilak Nagar, Delhi, 110018, Delhi, India.
Mr. Mohammad Ashif, Mrs. Meena Begam, Meena Begam Enterprises Mr. Navi Mohamed (Prospect NoIL10085022)	16-August-2021 Rs. 8,63,499/- (Rupees Eight Lakh Sixty Three Thousand Four Hundred Ninety Nine Only)	All that piece and parcel of the property be No. 11D/K-2995 Kh, No. 2995, Area Admeasu Sq. Ft., Om Nagar, Prakash Nagar, Naraicl Uttar Pradesh, India, 282006.
Mr. Siddhartha Siwach, Mrs. Swati Siwach (Prospect No 761316)	Thousand Seven Hundred Eighty Only)	Sikka Krissh Green,K.No. 284,285,288 & 290, 250001, Uttar Pradesh, India.
Mrs. Ranjeeta, Mr. Gurpreet Singh, Mr. Jasvinder Singh (Prospect No 855913)		

RELIANCE

Power

Place: Delhi

Date: 21.08.2021

NOTICE TO THE MEMBERS

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Reliance Power Limited (the 'Company') is scheduled to be held on Tuesday. September 14, 2021 at 12.30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility.

The AGM will be held through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act. 2013 and circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, and January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM.

Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL . NSDL ('Depositories') and will also be available on the Company's website www.reliancepower. co.in and website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of KFin Technologies Private Limited (KFintech), the Registrar and Transfer Agent of the Company, at www.kfintech.com. Any Member holding share(s) in physical mode can register their e-mail ID on the Company's website at www.reliancepower.co.in by following instructions provided therein and any Member holding share(s) in electronic mode can register / update e-mail address with respective Depository Participants ("DPs"). The Company has engaged the services of KFintech as the authorised agency for conducting of the e-AGM and for providing e-voting facility. Members can cast their vote online from 10:00 A.M. (IST) on Friday, September 10, 2021 to 5:00 P.M. (IST) on Monday, September 13, 2021. At the end of remote e-voting period, the facility shall be disabled. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Only those members, whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners (in case of electronic shareholding) maintained by the depositories as on the 'cut-off date' i.e. September 7, 2021 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. A member can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or e-voting during the AGM. Members who are holding share(s) in Physical Form or who have not registered their e-mail address with the Company / Depositories or any person who acquires share(s) of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds share(s) as of the 'cut-off date' i.e. September 7, 2021, may obtain the login ID and password as per procedure provided in the Notice for the AGM. Members are requested to carefully read all the instructions set out in the Notice for the AGM relating to attending the AGM, casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM. Queries / grievances, if any, with regard to e-voting, may be addressed through e-mail at reliancepower.investors@relianceada.com or at evoting@kfintech.com OR call at +91 40 6716 1500 OR visit Help and FAQs and e-voting user manual available at the download section of KFintech's website at https://evoting.kfintech.com OR contact toll free no.1800 309 4001.



JAYSYNTH DYESTUFF (INDIA) LIMITED

CIN: L24114MH1985PLC035564 Registered Office: 301, Sumer Kendra, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400 018 Tel No.: 022 4938 4200/4300 + Fax No.: 022 3042 3434 Website: www.iavsynth.com +E-mail Id: jsec@jaysynth.com

NOTICE OF 36[™] ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 36" Annual General Meeting (AGM) of the Members of Jaysynth Dyestuff (India Limited is scheduled to be held on Friday, 17* September, 2021 at 03.00 p.m. through Video Conferencing (VC) Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and in compliance with the procedure prescribed in General Circular No. 14/2020 dated 08"April, 2020, Circular No 17/2020 dated 13"April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 05" May, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13" January, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12" May, 2020 and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15" January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India.

	For Reliance Power Limited
Place : Mumbai	Murli Manohar Purohit
Date : August 23, 2021	Vice President - Company Secretary & Compliance Officer
Reliance Power Limited	18 8352 R. 19
CIN: L40101MH1995PLC08468	37
Regd. Office: Reliance Centre,	Ground Floor
19, Walchand Hirachand Marg,	Ballard Estate, Mumbai 400 001
Tel.: +91 22 4303 1000, Fax: +9	
Website: www.reliancepower.co	.in, E-mail: reliancepower.investors@relianceada.com

financi	alexp	.epart.in	



The Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 including the Notice of 36"AGM of the Company, are being sent to the Members whose email ids are registered with the Company/Depositor Participants. The Annual Report along with Notice of 36"AGM of the Company is available on the website of the Company at www.javsynth.com and shall also be available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com Statutory Registers and Documents referred to, in the Notice of 36"AGM and Explanatory Statement are oper for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all days (excluding Saturdays and Sundays) between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. upto the date of 36" AGM

The Members of the Company who are holding Shares in physical form or who have not registered their email in with the Company, can cast their vote through remote e-voting during Monday, 13" September, 2021 (9.00 a.m. IST) and ends on Thursday, 16" September, 2021 (5.00 p.m. IST) or through e-voting during the Annual General Meeting, Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the Notice of 36" AGM.

The procedure for registration of - (i) email id to receive future documents through email and (ii) Bank account details to receive future dividends directly in the Bank Account:

 a) Members holding shares in Dematerialised mode are requested to register their email id and Bank Account details either with the Company or with their Depository Participants or the Registrar and Transfer Agent of the Company

b) Members holding shares in physical form are requested to register their email id and Bank Account details by sending a written request at the Registered Office of the Company or by sending an E-mail to rnt.helpdesk@linkintime.co.in mentioning their folio number.

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 10° September, 2021 to Friday, 17° September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 36" AGM and payment of dividend on equity shares for the financial year 2020-21. The dividend of ₹0.20 paise per equity share having face value of ₹1/- each recommended by the Board, if approved, at the 36"AGM shall be paid to those Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on Record Date i.e. Thursday 09* September, 2021 and to those Members who hold shares in physical form and whose name appears on the Register of Members of the Company as on that date.

In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-2305 8738 and 022-2305 8542/43.

In case the Members have any queries or issues regarding login/e-voting during the AGM, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or call 022-4918 6175.

For: Jaysynth Dyestuff (India) Limited

Place: Mumbai Date: 23rd August, 2021

Riddhi Manoj Pate Company Secretary and Compliance Office Membership No. A50707



Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited



Date: 24-August-2021 Place: Delhi/NCR

राष्ट्र

खाद्य पै	h क्टरी	में
विस्फोर	ट, दो	मरे

बंगलुरु, 23 अगस्त (भाषा)।

बंगलुरु में सोमवार की दोपहर में एक खाद्य फैक्टरी के ब्वॉयलर के फट जाने से दो लोगों की मौत हो गई वहीं तीन अन्य लोग घायल हो गए।

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

सहयोग को प्रतिबंबित करता है।

पुलिस के अनुसार अनजान थियेटर के पास एक आवासीय क्षेत्र में करीब पौने दो बजे एम एम फूड प्रोडक्ट्स का ब्वॉयलर फट गया। उस समय वहां सात लोग काम रहे थे। इस विस्फोट में दो लोगों की जान चली गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

बंदूक चलाने की कोशिश में गई युवक की जान

दुर्ग (रायपुर), 23 अगस्त (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपने जन्मदिन की खुशी में बंदुक चलाने की कोशिश कर रहे युवक की जान चली गई। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 12 बोर बंदूक की गोली से रोहन सिंह (18) की मौत हो गई है।

आईबीसी, 2016 के अंतर्गत ई-नीलामी बिक्री सूचना ब्रदर्स बेवरेज प्रा.लि. (परिसमापन में CIN:U15122DL2015PTC282963 की आईबीसी, 2016 के अंतर्गत बिक्री सचना जी. कार्यालयः जी-5, भू तल, खिजराबाद 27-बी, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी (लॉयन्स हॉस्पीटल के निकट नई दिल्ली परिसमापक कार्यालयः 172, प्लॉट नं.-7-सी,

सेक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली-110077 **शुद्धिपत्र** पया अचल सम्पत्तिः एक 607 एवं 608, फेज-II सुरी गुलावटी रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, धौलाना गुलाव मसूरा गुलावटा राड, इडास्ट्रवल एरवा, वालाना गुलावटा मार्ग, डासना, उत्तर प्रदेश–201015 में स्थित भूमि तथा भवन, क्षेत्रफल माप 1810 वर्ग मी. की बिक्री के लिए ई– नीलामी से संबंधित इस समाचार पत्र में 19.8.2021 क गोशीना से संघोधरी इस समाधार पत्र में 19.3.2021 फो प्रकाशित सार्वजनिक सूचना देखें। कृपया ध्यान रहे कि ईओआई जमा करने की तिथि 24.8.2021 की जगह

25.8.2021 है। अन्य नियम एवं शर्ते पूर्ववत रहेंगे।

विजय कुमार परिसमाप IBBI पंजी. सं: IBBI/IP 02/IP-00652/2018-19/12020 ईमेलः tbbpl.liquidation@gmail.com तिथिः 23.8.2021 स्थानः नई दिल्ली



Pursuant to Regulation 29(1) (a) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & disclosure Requirements) Regulations 2015, ("LODR Regulations") Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company, will be held on Tuesday, 31st day of August, 2021 at 03.00 P.M. at registered office G.T. Road, Mukerian, Distt. office G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab – 144211 at inter-alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th day of June 2021 and to transact any other usiness with the permission of the chair Further, in terms of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of nsider Trading) (Amendment) Regulations 2018 and Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the "Trading



आइएनएस रणविजय और निर्देशित मिसाइल भारत और फिलीपीन की नौसेना ने सोमवार को पश्चिम फिलीपीन सागर में युद्धाभ्यास किया जो अहम जलमार्ग में उनके बढ़ते सामरिक

पोत आइएनएस कोरा ने हिस्सा लिया जबकि फिलीपीन नौसेना का प्रतिनिधित्व उसके फ्रीगेट बीआरपी एंतोनियो लुना ने किया। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया. 'भारतीय नौसेना के दो पोत. आइएनएस

की ओर से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक रणविजय और आइएनएस कोरा पश्चिम प्रशांत सागर की तैनाती पर हैं और फिलीपीन की नौसेना के पोत बीआरपी एंतोनियो लुना के साथ सोमवार को पश्चिम फिलीपीन सागर में युद्धाभ्यास किया।' उन्होंने बताया, 'संयुक्त रूप से किए गए युद्धाभ्यास में कई सामरिक रणनीतियों का अभ्यास किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना बताया, 'भारतीय नौसेना के दो पोत, आइएनएस रणनीरियों का अध्यास किया गया।' अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना बताया, 'भारतीय नौसेना के दो पोत, आइएनएस रणनीरियों का अध्यास किया गया।' मण्डल का केन्द्र इंग्ट दिल्ली, पीकेट – ई मार के बिल - के प्रमुख मण्डल का केन्द्र इंग्ट दिल्ली, पीकेट – ई मार के बिल - के प्रमुख मण्डल का केन्द्र इंग्ट दिल्ली, पीकेट – ई मार के बिल - के प्रमुख मण्डल का केन्द्र इंग्ट दिल्ली, पीकेट – ई मार के बिल ने 1007 हंक का प्रकार प्रतिविद्ध प्रवर्धना कि बतार केन्द्र मार मण्डल का केन्द्र इंग्ट दिल्ली ना का प्रतिवृद्धका और वृत्तक प्रवर कि मार मार बिशिवन, प्रयान केवार के स्वा के प्रतिवृद्धिक प्रवर कि मार मार बिशिवन, प्रयान केवार के स्व केवा का प्रतिवृद्धका आदे कु केवा के के केवा का प्रयोग करते हुए कर्वात के का भ्रतिवृद्धका आदे कु केवा के के केवा के केवा के केवा के केवा केवा
दिजाल ते से जिल क्षेत्र कर का का कर के का सामि के साम के से का को ही की का ने के साम माम के साम के स
पंजाब के राज कर, दिस्ता कि कि का प्राया के साल का के साल के साल के साल के साल के साल प्राया के साल प्राया के साल प्राया के साल प्राया के साल का के साल के साल के साल प्राया के साल का के साल
मण्डल सरना कोन्द्र दुंस्ट दिल्ली, पॉकेट – ई. मपूर बितर, फेज-11 (दिल्ली–11001 द्रेसेल. cs807560ph.co.hr, फोन न, 011-22719788, 2788289 कफा सुचना प्रतिपूर्विहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत खाढीक आंकरतावारी ने दिली प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत खाढीक आंकरतावारी ने दिली प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत खाढीक आंकरतावारी ने दिली प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत खाढीक आंकरतावारी ने दिली प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत खाढीक आंकरतावारी ने दिली प्रवर्तन) नियम 2002 के तियम 8 (1) के तहत खाढीक आंकरतावारी ने दिली प्रवर्तन) नियम 2002 के तियम 3 के साथ प्रतिव घारा 13 के तहत प्रदत्ता शित्मा प्रवर्तन श्रांति प्रवर्तन) नियम 2002 के तियम 3 के साथ प्रवित घारा 4 के तहत प्रदत्ता शित्म प्रवर्तन श्रांति प्रवर्तन) नियम 2002 के तियम 3 के साथ प्रवर्त घारा से के तहत प्रवर्त श्रीतमां प्रवर्तन श्रांति प्रवर्तन) नियम 2002 के तियम 3 के साथ प्रवर्त घारा 13 के तहत प्रवर्त श्रीतमां प्रवर्तन श्रांति प्रवर्तन ने हत्तु दिल्ली–110083 जन्य प्रवराः द्वै-165 त्यापी के प्रवर्तन में हत्तु दिल प्रवर्तन श्रांति प्रवर्तन प्रवर्तन स्वार्ग संत्र क्रियन स्वार्ग अंद श्रीजी सारे का के तहते श्रत्ति साथ विप्रवर्तन क्रियन के त्रियम के त्राय प्रवर्तन स्वार्ग संत्र प्रवर्तन श्रांति प्रवर्तन प्रवर्तन स्वार्ग संत्र प्रवर्तन स्वार्ग संत्र श्रत्त राज विप्रवर्तन स्वार्ग संत्र द्वारा स्वार्ग से क्रांति के क्रांद युग्तति करे खार करांतिओं के प्रयोग में ने से वर्णित संत्र विप्रवर के साज के ही स्वार्ग से जाता है कि का सात्र संत्र हिल्ती से दावानी दे के त्या दाता है कि का सात्र संत्र श्रत्त सात्र कर के सात्र संत्र हत्य संत्र संत्र संत्र संत संत्र सात्र संत्र संत्र संत्र संत्र संत्र संत्र संत्र संत्र संत्र सात्र संत्र हत्य संत्र संत्र हत्य संत्र संत्र संत्र संत्र संत
मण्डल शरना कोन्द्र सुरंद दिली, पॉकेट – ई. मपूर बितर, फेज–11 (दिली–11001 हंगेल: cs807560ph.co.ln, फोन नं.011-22779788, 2788589 कफा सुरचा प्रतिविधित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के देहत प्रवर्तन अभिन 2002 के तियम 3 के प्राध्य पित वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन अभिन 2002 के तियम 3 के प्राध्य पित वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन अभिन 2002 के तियम 3 के प्राध्य पित वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन अभिन 2002 के तियम 3 के प्राध्य पित वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन अभिन 2002 के तियम 3 के प्राध्य पित वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन अभिन 2002 के तियम 3 के प्राध्य पित वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन अभिन यहा कर्णन कर 18 कि न्दूर के त्राध्य प्रति वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन आभि 2002 के तियम 3 के प्राध्य पति वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन आभि 2002 के तियम 3 के प्राध्य पति के व्यद क्ष अभीनी रोगे के गो तथा प्रवर्तन आभि 2002 के तियम 3 के प्राध्य पति क्ष अभिनी रोगे के गो तथा प्रवर्तन आभि 2002 के तियम 3 के प्राध्य पति अधिक प्राध्य के व्यद्य प्रवर्ध अभीनी रोगे के प्राध्य में तथा के प्राध्य में तथा के प्राध्य में तथा के प्राध्य में तथा के तथा का प्रदेश–201204 प्रवर्ध साधा 1 कर्कात पा दिवर्ध के प्राध्य पति अपि सिर्ध के प्राध्य के प्राप्य के स्विध के प्राप्य के प्राप्य के तथा मां 2 – 165, प्राध्य के प्राप्य के प्राप्य के तथा भाग दे प्राध्य में तथा के प्राय्य के के तथा मां 2 में तथा काथा : 2 – 161, प्राप्य के तथा मां 14 के प्राध्य के प्राप्य के तथा के वार्य के स्वाध्य में तथा के प्राय्य के तथा मां 2 प्रवर्ध के प्राय्य के तथा पा स्वाध्य के प्राय्य के तथा मां 13 के तिय कर तथा के प्राय्य के तथा मां 2 मंग के के क्षाय पति के अधिक कर को प्राय्य के तथा के प्राय्य के तथा मां 2 के तथा कर के से प्राय्य के प्राय्य के प्राय्य के प्राय्य के तथा मां के क्या के तथा में प्रयंत्य के तथा मां 8 क्याक कर की दिया के प्राय्य के प्राय्य के प्राय्य के तथा मां 13 के तथा ना प्रार्य के तिया के प्राय्य के तथा मां कर करा के तथा कर तथा में त्य के त्य करां ती के प्रवां में ने ने वे प्राय्य के तथा मां 13 के तथा मां 13 के तथा मां 13 के त्या सार्य के तथा के त्या के तथा के प्राय्य के त्या करां ती के प्रवार में ने प्राय्य के तथा में स्
मण्डल शरना कोन्द्र सुरंद दिली, पॉकेट – ई. मपूर बितर, फेज–11 (दिली–11001 हंगेल: cs807560ph.co.ln, फोन नं.011-22779788, 2788589 कफा सुरचा प्रतिविधित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के देहत प्रवर्तन अभिन 2002 के तियम 3 के प्राध्य पित वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन अभिन 2002 के तियम 3 के प्राध्य पित वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन अभिन 2002 के तियम 3 के प्राध्य पित वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन अभिन 2002 के तियम 3 के प्राध्य पित वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन अभिन 2002 के तियम 3 के प्राध्य पित वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन अभिन 2002 के तियम 3 के प्राध्य पित वारा 13 के तहत प्रदत्त प्रवर्तन अभिन यहा कर्णन कर ने 813–ए. सेक्टर 22–बी, गुरुगम, हरियाण को मांग नोटिस दिनोक 60.4.221 को जारी किया वा, जिसमें बक्या तरि 8.086208.10 ह, बल्य प्राया : ई – 165, दाराध्री भारप के प्राध्य प्रदेत प्राध्य प्राद्य प्राध्र स्व प्राध्र अप विध्र स्व प्राध्य के सुरिष्य का या, जुब सिख प्राध्र या, जुब मार प्रवर्तन आखि किया के प्राध्य में त्या क्या तिक्ष किया के क्राय क्षेत्र कर 90.86208.10 ह, अत्य प्राया : ई – 165, दाराध्री भारप के प्राध्य का या, जुब सिख का या, जुब सिख का या, जुब सिख का या, कर्णना का विधित का प्राधा के त्या के तिक्र के त्या प्राध्र के तिक्र का विध्र के त्या प्राध्र के तिक्र मा के प्राध्य के प्राध्य के क्या का के कर के त्या ते के उत्यो ने ने ने वर्षक के साथ यति अधितिय के वाय, जुब सिख का प्राप्त के तिका स्वाध्य प्राया के उत्या के ने ने ने वर्षक क्या का ने कि क्या हो हो ने के त्यर दुगालक के तिका हो कर्णना के प्राधार कर के त्या वार्य के क्या के विध्र महा क्या के तिका हो कर्णना के त्या वात्र के त्या प्राप्त के कि क्या के दिशा हा के कि त्या हो कर्णना के क्या का ने ते हो के क्या के त्या त्या के क्या के तिका हो के त्या कर के साध्र के त्या व्याक के ते के क्या के तिका हा करान के ती के क्या के ते के क्या के तिका के ते तिका के तिका हो के तात के के साध्र वार्य के क्या के तिक क्या हो करान के ती के क्या के त्या वार का के के क्या का के तिका हा करान के ती ने क्या का के कि का का प्राप्त करा के के त्या वात्र के क्या का के त्या वात्य के तिका ते कि का के ते ता क्या का का के तिका ते के ता का ते के ता कर ते के ता क
इंन्तेल रखा75000000000000000000000000000000000000
करणा चुचना प्रतिपूर्विति (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत जबकि व्योकत्वाकरी ने वितीय आत्मियों का प्रतिभूतिकत प्रवर्तन अविभिन्न 2002 के तिरम 3 के साय पतिव घारा 13 के तहत प्रदत्त शकियों प्रावर्तन अविभिन्न 2002 के तिरम 3 के साय पतिव घारा 13 के तहत प्रदत्त शकियों प्रावर्तन अविभिन्न 2002 के तिरम 3 के साय पतिव घारा 13 के तहत प्रदत्त शकियों प्रावर्तन अविभिन्न 2002 के तिरम 3 के साय पतिव घारा 13 के तहत प्रदत्त शकियों भा रयों कहा देश के देश प्रवर्तन भा प्रत्न स्वत्र प्रवर्तन श्वे श्वभी स्वर्ग अंग प्रवर्ग स्वर्ग वात्री भा रयों कहा देश के देश प्रवर्ग अप मुक्त स्वर वाद अंग श्रमीत संपर्श प्रावर पता हो नियम 2002 के तिरम 3 के साय पतिव घारा 13 के तहत प्रदत्त शकियों भा रयों कहा के स्वर्ग स्वर्ग अप मुक्त से ब्रावर वात्री श्रभीत संपर्श प्रवर्ग वात्र क्वरदा लाख विद्वार्ग स्वरंग व्यवहां कि व्यवहां देश स्वर मात्रो और स्वर्थ मात्र का स्वरंग के स्वरंग वात्र प्रत्न स्वरंग में क्वरंग के स्वरंग मंत्र के तर्ग में क्वरंग स्वरंग स्वरंग स्वरंग संवरंग स
जबके अधोहसोक्षरो ने वित्तीय आसित्यां के प्रविम्तुतिक्षय और पुनर्गठन प्रद प्रविम्तुति कित प्रवर्तन अगितम 2002 के दिवस पंजाब नेमलन सेक, का प्रविक्षत खाश 13 के तहत प्रवत्त का यो वर्ष्य यो वरस्र दो हुए करोंच्रए औ सुमाद यावव पुत श्री भूल सिंह यादव और श्रीनती सिंग का यो वर दो हुए करोंच्रए औ सुमाद यावव पुत श्री भूल सिंह यादव और श्रीनती सिंग या यावक का या वा दो ने-165, मनोंचन प्रव, ने-महर तरीवन ने, बेनमुर, नई दिल्ली–110081 आज या प्रवाद दो ना भगते ने, 187–77, सेक्टर 22–41, आज कारण या प्रवंद यो ना भगते ने, 187–77, सेक्टर 23–41, अज कारण या प्रवंद ने-15, राजीव नार, बेनमुर, नई दिल्ली–110081 आज या प्रवंद ने-155, राजीव नार, बेनमुर, नई दिल्ली–110081 आज या प्रवंद ने ने स्वाई स्वाई स्वाक्ष स्वाध अधिक स्वीक्ष स्वाध्य के 80,86,268.10 (रा. संपत्ती स्वाध्री स्वार मुद्द अक रावी का युगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा कर्कवार रावि प्रयाद वितिय के अधोह स्वीक्ष के आज किताक्ष में सुस्वा हित (प्रवर्तन) ने के गा या चीत की वा प्रवित्त के आज कि रावा हो । कर्कवार रावा या स्वीक्ष वाध प्रवित्त किया की पा राउ के क्रिया ही । व्यायकर्ता[यो के साथ ते पर्यातान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा कर्कवार प्रवर्ध के या जोति के 167 के ने ने के कर कर क्षेत्र अप प्रवर्ध के वित्र या जी स्वाच गोति के 167 के के क्रिया ही । व्यायकर्ता[यो के सेय स्वान्ध] त्या अस्वी के क्रिया ही । व्याकर्य कर्तीय के स्वाक्ष के त्री राव स्वाज के क्रेया स्वाक्ष के स्वात ने ने कर कर के बा का स्वार के के प्रवत्त ने प्रवं साक्ष स्वार के प्राय प्रवत्त के साव के स्वार के त्या आत के क्रेया का स्वार के त्या अप प्रवं सि कित के अधीन संचाा । व्याकरर्व करी के स्वाय स्वाय शा या प्रवत्न श्रे के स्वाय के त्या अप प्रवत्त के स्वाय करी के स्वाय के त्या आप के क्रेया स्वार के त्या अप प्रवत्त के स्वाय स्वात के स्वाय स्वाय के स्वाय के त्या आत के क्रेय प्रवत्त के स्वाय स्वाय करा के स्वय साव के स्वाय के स्वाय के ते या प्रवत्त के स्वाय करी के स्वया का के के क्
प्रतेन अधिनियम 2002 के तिरा पंजाब नैमनत बैंक का प्राविक्त अधिकारी होने के नोते तथा प्रतिमूर्ति दित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठिव धारा 13 के तहत प्रवत्त शक्तियों जा प्रयोग कररो हुए कर्णदाए श्री चुमाम यावद पुत्र श्री पूल सिंड वाद और शीनती सिरोज यादव चा प्रयोग कररो हुए कर्णदाए श्री चुमाम यावद पुत्र श्री पूल सिंड वाद और शीनती सिरोज यादव चा प्रयोग कररो हुए कर्णदाए श्री चुमाम यावद पुत्र श्री पूल सिंड वाद और शीनती सिरोज यादव चा प्रयोग कररो हुए कर्णदाए श्री चुमाम यावद पुत्र श्री पूल सिंह वाद और शीनती सिरोज यादव चा प्रयोग करते हुए कर्णदाए श्री चुमाम यावद पुत्र श्री पूल सिंह वाद और श्रीनती सिरोज यादव चा दी श्री सुंच करते हुए कर्णदाए श्री चुमाम यावद पुत्र श्री कर 906.6268.010 (र. अस्सी ताख डियासी इजार दो सौ अक्षयत और पंते दस मात्र) और भविष्य का व्याज, खर्च और व्या प्रया था। कर्णदार (प्राय संसाधारण को पूलित किया जातात हि कि अंजोडस्ताकसी ने चुकास हित (प्रतंतन) ने के करा या था। कर्णदार (प्राय संसाधारण को पूलित किया जातात हि कि अंजोडस्ताकसी ने चुकास हित (प्रतंतन) ने विषय : पीर्पनशी, दितली में श्री संप्र वा साच के साय कोई भी लेन–देन पंजाब खाकरकर्ता(क्री) की रिशेष घ्रम में के प्रावत्त किया है। व्यायकर्त संके नाथ लेन–देन न करें तथा संपत्ति के आधा कोई स्वाय के द्री ता वा ती हि क के देशाय संसीकार के आधि संसंकाधाय का साया, खर्म के साय कोई भी लेन–देन पंजाब मं कर्कत क प्रात स्वात्त बकाया सारिक के अधिक हिया का याज, खर्च और अन्य सारात क्र के प्रात वा सिरित के आधीन दिया। वा वारकर्ठ तर्ज भार संक काया राति क. 80.86.86.80 (र. असमी त्रवह कि प्राय सिरित के आधीन देशा पर रात्क कर के बाया का प्रज साराति में बाया स्वाय के आधा के आग का क्र का को क्र का वा कर दे हैं जा क के द्राय या कर के वा द इस मिकत के त्रव का स्वाय संकर का या सारक का 80.86.86.86.87 (र. असमी त्रवह कि ज्या सारक का वा का का के चार का क्र रातक कर संका का क्र रातक कर के वा हा कर क साराती के के साथ क को से संते संकर का का त्रव के सार का का स्वा की स्वा का स्वा के के त्रत कर संका के ही साया है? कर्णत की सारित के उपरंत त सारक कर हो ता सार का का सहा कर कर कर हो हा का वा के साल साराती के क्र कर कर सरक की दे ता मा कि का का का का ता है? जा का सारित क उपराक ता सार कर 0.86 दास
प्रतिपति कित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित थांग 13 के तहत प्रवत्त शकियों का प्रयोग करते हुए कर्जायर श्रेष्ठ सुभा खावव पुत्र श्री फूल सिंह यादव और श्रीमती सरोज वावद का रसी लाख उपियादी इजार दारो गंकान ने. 813–7. सेक्टर 22–4ी. गुरुप्राम, इरियागा की भौग नोटित दिनांक 0.604.2021 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 80,86,268.10 सरसति लाख उपियादी इजार दारो भें के अक्षोर प्रवेद रक्ष मा श्रे और श्रविध का क्राण, खर्च और त्राव तथा प्रविद्या किया था। कर्जदार /गांददर्य उक्तर राशि का युग्तान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वार कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अक्षोडस्ताक्षरी ने सुख्ता हित (प्रवर्त्त) कंकदा या था। कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अक्षोडस्ताक्षरी ने सुख्ता हित (प्रतद्वान कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अक्षोडस्ताक्षरी ने सुख्ता हित (प्रतद्वान कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अक्षोडस्ताक्षरी ने सुख्ता हित (प्रतद्वान कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जो जे प्रस्ति का प्रध पति का श्रीमान की जाप- को तथा है। जयारकरा(ओ) का विशेष रूप से जीर सरवंसाधारण को सानान्य रूप से बेतावनी दी जाता है हि सात्र से असफ से और संवेदाधा को उप- दात (श्रे के तका प्रदत सात्र के प्रध के स्वरात्र वारों के 10 के प्रस्ता हा प्रध के सात्र है। उक्यारकरा(ओ) का व्यान एवट की धारा 13 के तथा बाराया, खर्म और अल्प मानत के क्रया को प्रध वी 1 वधाति, या उप रावस के कोई में सात्र स्वा करणों के काया ने यो तो करात की या प्रध तो या कि सात्र ये काया की क्रयान देशा कि प्रधा के वा स्व होन के कंसा सार्य सि क कधीन होगा। खरारकरा(ओ) का व्यान एक की बारा 13 के स्वर वा सात्र तो के अंतर्गत सुरक्ति सारार स्वा सारक को क्रया नी प्रकर को सात्र देशा के के प्रा दे दे सा सात्र के सात्र सारार के काया ने सि सात्र के वा सात्र तो के कान ही हु साल है। उपरोतन सारार सि क के अधीन होगा। खरारकर्ता(ओ) का व्यान एक की सात्र ता के को नई ते। सारार से का क्रया ता स्वान कर का सात्र ता कर के ने इस सात्र ते सात्र तो का क्रया ता सरक तो स्व का का के कर कर हु स्व सान्र सारार के कार्य ता सात्र तो कर का ने सात्र तो कर का कर ता ह स्वान सात्र तो के कार्य ता सात्र के कार संत ता सर की का कर का ह ता तर से आप की ते कार स
का प्रयोग करते हुए कजरार श्री सुपान मानता न 39-7 भे पुल्ल रिष्ठ यादव और श्रीनती सराय वादव प्रली श्रे दुपान में कान न. 18-72, सेरेक्टर 22-41, गुरुपाम, हरी रायाण को मान नोटिस दिनांक 08.04.2021 को जारी किया था, जिसमें बकाया शरी क. 80,86,268.10 (र. असर्प प्राय द्रपाद राष्ट्री वादव नोटिस की प्रारि से 60 दिनों के अन्दर शुगतान करने के कहा गया था। कर्जवार प्राय द्रपाद राष्ट्री वादन नोटिस की प्रतिय से 80 दिनों के अन्दर शुगतान करने के कहा गया था। कर्जवार प्राय प्रदर्श विका राषि को प्रारान करने में असफल हो गये हैं इसलिय एततद्वास कर्जवार प्राय प्रदर्श वादन शीरिक को प्रारं के की तरिष से 80 दिनों के अन्दर शुगतान करने कं कहा गया था। कर्जवार तथा प्रसंसाध को चुपित किया जाता है कि अंबोहरताक्षरी ने प्रुखा दिए (प्रतर्भ) नियस , 2002 के नियम 8 के साथ पति अधिनियम की घारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत राषि को योग में नेव वरिक संपास पर को को करका ते तिया है। उचारकर्ता(ओ) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को करका ते तिया है। उचारकर्ता(ओ) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से वेतावनी दी जाती है कि कंग्रया हे कर प्राय राष्ट्र के प्राय राष्ट्र के 80,86,268.10 (र. अस्मी लाख ही प्रिय की प्रति थ मा) वेतारा के भाग के तंत वा सामय चुकक तो को प्रदे ता सामय चुक्क तो को का खाय राष्ट कराता के प्राय राष्ट्र के प्राय का संक साधारण को करका ते तिया है। उचारकर्ता(ओ) को विशेष रूप से आत. सर्वसाधारण को क्या की प्रत के वा प्रति के वात की मान के तथा वा ती से उक्त देखा में को दें में भागती क काय आत्रवीका दिशानिय के वाया जितक के वा प्राय तिव क केया ती के प्राय के क्या प्राय कि कि क्या को रहे है। मान के काया आतिक के तथा जीतवेत्ववद साध्य प्राय का के त्या हास कि को दा प्राय प्राय के को वा ने साथ प्र ख़क को को रहे हो। जनाव है कि अवीन होगा। प्राय याव के वी की की वा विषय प्राय के की वेत के अधी के आधा नही ता आत्र हुत कि जावा ही। प्राय के की के के त्य के अवी को हो ता हो है। या का कर तो का विषय प्राय के के साम के ते त्य प्राय के का का प्राय के का को ही का विया जाता है। प्राय के क्या के त्या साध के का विर प्राय की का विषय प्राय के को ना के अध्य के ता प्राय के अप साम हि को का विषय प्राय के के साम क ता 13 करे वा का का रहा हा किके ने वा वो विक के ते साय र ताय को ना
मोटिस दिनॉक 06.0.021 को जारी किया था, जिसमें बकाया रागि रू. 00,062.081.0 (ठ. जरसी साख वियास हाउपर, यारपर प्रे से प
अस्य आगर इत्यादि साहित उत्तर प्रदे स का मान, और भविष्य का खाज, खर्म और अन्य प्रमार इत्यादि साहित उत्तर प्रदेश–201204 जिंग हो तका गया था। कर्जवार तथा था कि कि को कि तिथि से 60 दिनों के अन्दर गुगतान करने के कहा गया था। कर्जवार तथा सर्वसाधारण को सुवित किया जाता है कि के अंग्रेहसतारी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) कर्जवार तथा सर्वसाधारण को सुवित किया जाता है कि के अंग्रेहसतारी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) कर्जवार तथा सर्वसाधारण को सुवित किया जाता है कि के अंग्रेहसतारी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) कर्जवार तथा सर्वसाधारण को सुवित किया जाता है कि के अंग्रेहसतारी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) कर्जवार तथा सर्वसाधारण को सुवित किया जाता है कि के अंग्रेहसतारी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) कर्जवार तथा सर्वसाधारण को सुवित किया जाता है कि के अंग्रेहसतारी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) कर्जवार तथा संपर्वती के साथ के करा से अस्ति पर दिनांक 19.08.2021 को कब्जा ते लिया है। उधारकर्ता(ओ) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि ने निनन्म स्वरकार प्रति कर का सर्पती के आधार अंग्रे भी तेल–देन पंजाब ने तक काराको के दिया है। पारतीय साथ अखरक और पेसेद सर मात्र) विनांक \$1.08.08.2021 तक और भविष्य का ब्याज, खर्म और जन्म सामार इत्यादि सहित के अधीन होगा। खयारकर्ता(ओ) का ध्यान एवट की घारा 13 की उप धारा (८), के प्रावधानी हजार पं सा अखसत और पोरेद सर मात्र) विनांक \$1.08.09.2021 तक और भविष्य का ब्याज, खर्म और जन्म सामार इत्यादी सहित के अधीन होगा। खयारकर्ता(की) का घ्यान एवट की घारा 13 की उप धारा (८), के प्रावधानों के अंगर पर प्रवार को प्रतरा प्र आपको साविद्य करने हे तु प्रायत हे तथा आज्य पर प्रवेति हे कखरा ने साथा पर आवात है। जन्यरी स्वराक को प्रति के आया 12 की उप धारा (८), के प्रावधानी के अंगरत सुर खे और भाय प्रवर्त को प्रायत हुककता 'स्वार्य को प्रवह साहय प्रवत्त के साय प्रवत्त के साय प्रवत्त के स्वायत से तथा प्रवत्त करने हे तु प्रवत्त करने खा साथ, स्वराती के वह समस्त भाग एवं अंश जोकि (भूनि प्रव मनन) क्रेत्र कता हे। जन्व के तरा साथा को आजात का के आवात हु स्वायत को आया है। त्यात के ताक सान को आप प्रवत्त के समकत की साय प्रवत्त की साय प्रवत्त के समकते ही त्यात सुप्त सायति के वह के ने माम पर है। वईई संजीन ने साय प्रव कु साय कि आव का ना का त्यात ह
अन्य प्रमार इत्यादि चष्ठित उक्त नोटिस को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने के कहा गया था। कर्जवार /गारदर्सं उक्त सशि का मुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतददास कर्जवार /गारदर्सं उक्त सशि का मुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतददास कर्जवार /गारदर्सं उक्त सशि का मुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतददास कर्जवार /गारदर्सं उक्त सशि का मुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतददास कर्जवार /गारदर्सं उक्त सशि का मुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतददास कर्जवार /गारदर्सं उक्त सशि का मुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतददास कर्जवार /गार स्वांध्य कर्क चटनाक्रम का जिक किया है। उमारकर्ता(ओ) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निन्न सम्पतियों के साथ तेन–देन न करें तथा सम्पति के साथ कोई भी तेन–देन पंजाब ने स्वां बा कर स्वां के भीतर करना की मां की गई थी। तथा साथ कुक्र मी तेन–देन पंजाब ने स्वां बा कर पारे के साथ गति कि कार्य है। अपना के प्राप्त वार्स कि अधान होना। उमारकर्ता(ओ) का विशा हा 10 क उपर सबिय का ब्याज, खर्च और अन् प्राप्त हरपादि सहित के अधीन होगा। उमारकर्ता(ओ) का ध्यान एक्ट की घारा 13 की उप घार (b, के प्रावधानों के अंतर्गत चुरशित अवका सम्पत्तियों का विरप्र साथ रहती कि आधा र आज के दे जा कराया के आधा र आप को संवाध वे क्रांत स्वाद कर गिर्क्ष त्राप्त हरपाति का वह समस्त भाग एवं अंश जोति कि प्रा वाता है। अवक ते करत्या के आधा पर आपको 'सायाय वुककतां सुवीबढ़ कर राके का साथ रार रही हो नक आधा वह ते वाज आय है। यह त्रापति के वह समस्त भाग एवं अंश जोति भी खाकर्षि कि खाताता है। अवक तक सम्पत्ति के वह समस्त भाग एवं अंश जोति भी खाकरि ति क्रा जाता है। अवक तक तिरं के उत्तात सुक्त कर साथ दित्य जो नाक साथ हत्व ति का साथ रार रही दो तन खाय के नुसास कर सत्त ही सा कर. 12 क्वा र हरि कर्जता ता स्वार की साथ त्र स्वा के ब्राव स स्वार ही कि जाज साथ रार रही ति ते करणां के आधा र आव करन हे तमा रा कर करे है आप त्र या के स्वा ह साथ हत्य ता साथ रार रहर हो तन के अस्त रा साथ हत्य की काक साथ ते आय त्य रहा है। यह ता साथ हत्य ते साथ स्वा स्वा के तिरंग से आप कर करते ही का जागता शा जानबहुत है का कि का प्व रा त्य ति साथ त्य का स्वा ति ति रा प्य त्य त्य त्व स्वा क तर सि ता यत ता त्य ते
को कहा गया था। कर्जवार रथा प्रदर्भा खरवा रहि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्वहार कर्जवार तथा प्रदर्भाषा करते में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्वहार कर्जवार तथा प्रदर्भाषा करते में आसफल हो गये हैं इसलिये एतद्वहार कर्जवार तथा प्रदर्भा खर्भ कर साथ प्रवित अधिनियम की घारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदर्भ शाफियों के प्रयोग में नीचे वर्णित स्थानि पर रिनांक 19.08.2021 को कब्बा दे लिया ने क्रिया है। उषारकर्ता(3) को विशेष रूप से और सर्ववामार्थ्य को भाषाय्य कर चे होतावनी दी जाती है कि वे निन्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई नी लेन-देन पंजाब ने ने नक संपत्ति के अधोन होगा। उषारकर्ता(3) को विशेष रूप स्था के 310 के 30.2021 को कब्बा दे लिन-देन पंजाब ने ने नक समपत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा अस्पत्ति के साथ कोई नी लेन-देन पंजाब ने ने नक समपत्तियों के साथ गरी कर संका भार प्रवेर का आत के साथ कोई नी लेन-देन पंजाब ने ने नक संका भार प्रवेर के आधान होता 31.08.2021 तक और भविष्य का स्थाज, खर्म और ने नियत करणों के आवर्ष राय रात्र का का प्रशिक के आवर्ष तक आत खांच कि स्था अपत्र करने के माय के तथा अतितियद्व हि कि खाते में कुल के प्रया यहन के बाद इस निकर्भ समय रत्ता करकर हे तु प्राण हो को 30.2021 तक और भविष्य का स्थाज, खर्म और अन्य प्रयात ही कि खाते में कृत प्रया , आकाक खरा को यह ही जा के साय हो ने खा अन्य के साध ने पहुं को की कायाय है वया अत्य के साथ प्रयातत कि कर्जवा राय हो प्रया के अवधान होगा। उषारकर्ता(3) के यावा पर करन हे तु प्राण हे हैं . जाके राय हो ते संच राय हो तथा अधात कि उपरांग करने के बाद इस निकर्भ मायती के क्रवहा राय हो पर प्रयोगत क्या रही त्या पर आपक छे ते सारंदर, आत्र ते स्था को यह साथ है तथा ही ति करा रहा है। उपर्युतत तर्वा ते हे कर्जवा राय राय हो के अत्य हु है को कि ताया हा श्रे अं ते प्रया ति क्या के स्था राय हे ते प्रया के आय के व्या स्था के प्रया के ते कर हो है। यहा पर्यात ही कर्जवार और परंदर, चठनो ने स्था को के उत्तांत स्था हो समय राठ के कर सं के साथ हो के सहस कर तार हो ते राय प्रवा के ने मान राय ते त्या वाक्रित सिया जा की का साग हो राय तर्व दे कर समस्त भाग एव के आत के सिता से का प्रया हो के स्था हो सं या राक के ते सं प्रया ते कर स्था का के स्था सा
briderfor an extra and the an
Put and true in the province i
1111 11111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 11111111 1111111 111111
सारिपती भे प्रयोग के प्रयोग के 10 दिनों के भीतर, करने की मान की गई थी। तथापि आप उस संबंध में कोई भी पारतिय वे निम्न सम्परियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब में तनम्न कैंक, के प्रमार वास्ते बकाया राशि रू. 80,86,268.10 (र. अस्सी लाख कियान्नी हजार पं से अडसरठ और पैसे दस मात्र) दिनांक 31,03,2021 तक और भविष्य का ब्याज, खर्च और अन्य प्रमार इत्यादि सष्ठित के अध्रीन होगा। उषाएकर्ता(ओ) को वियोग होता उपाल एकट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित कारणों के आधान एकट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं क्षंश जोकि (भूमि एवं भवन) क्षेत्रफल 135 वर्ग मी., प्लॉट नं. 813ए, सैक्टर-22–बी, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुनमान चे राइव प्रति के उपरोवत निकर्भ से पीडित महसूस करते हैं. आप, यदि साहाय ह का कर्जन हर्ष गरित के उपरोत्त नी करन्त राइट प्रजानि के जानन सुरक्षित के ज्वंव के नाम पर है। वाईई पंजी. नं. 14139 दिनांकित 13.02.2003 [देनांक : 19.08.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत तक्षिकारी, पंजाब नैशनल बँक राही कर्ममा ने सरक्ष रूप्त करने ने सामय हो ने वायज्य, दी के जावजया शरी जानबूझकर करा ती कि कर्जरा को प्रारंटर. युकी ने विवर्गत (के वे बकाया शरी जानबूझकर वही तिकर्या नो में परंटर. युकी ने के समय पर तैयार की नय राहा है । उपर्युकत सम्य उर्वर वेत वियाग सिंक नावक्ष से भीडित महसूस करते हैं. आप, यदि ऐसा चाहते हैं. समिति के राही तहन देते स्थायोधि के उपरोक्त ने वे वायज्य ही के वाक्य शरी कारा यहा जानब्रा हाय स्थाता ही के कर्जरार करां परंटर. युकी ने वे बत्य, ते के काक्य सारी जान सुक्ल करी. राही हो हो ते यो परिक कराय कराने ही किया जाना चाहिए। हम आपक ति वे उपरोक्त ने राय परित ने के उपरित ना करी के अत्य स्वय में अपने बचाव में आप तही वेया जाना चाहिए। हम आपक तिवेदन / अभिवेदन, उपम सहसूर करते हैं. आपका कोई तिवेदन / अभिवेदन समस उसके वियागधी के राहा यत सरकर-10. द्वारकन, नई दिल्ली- गाजाक के माहम सुकल ने तियो सारिक ते 13 वह समझा जाएगा कि आपका इर समिति के निक्क के संबंघ में अपने बचाव में कुछ स्व के दितर के गितता ता के जात वा या डाजि द
वे निगन सम्पतियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब में लेन-देन पंजाब किरन में असफल रहे हैं / आप के द्वीरा उसका लोग देहा है। मानले के स्वय आरमीलयों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब मानले के स्वय आरमीलयं हैं। मानले के स्वय आरमीलयं हैं। में जयप्र में निगन सम्पतियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पति के साथ की स्वय के साथ की स्वय के साथ की स्वय के साथ के प्रत्य के क्वय आरमीलयं हैं। मानले के स्वय आरमीलयं हैं। में जयप्र भाष के के प्रत्य के प्रत कर मांग कि साथ के साथ के साथ की कि साथ के साथ की के प्रत के बाद हम निकर्ज के प्रत करने हैं, आप के दाव हम से तथा को भाष के अनुरार पर गौर करने के बाद हम निकर्ज के प्रत कि साथ प्र तैया का त्य के साथ पर गौर करने के बाद हम निकर्ज के प्रत कि साथ पर गौर करने के बाद हम निकर्ज के प्रत के साथ पर गौर करने के बाद हम निकर्ज के प्रत के साथ के के साथ
[†] श्रानल बैंक, के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 80,86,268.10 (रू. अस्सी लाख कियासी इजार दो th अअसत और पैसे दस मात्र) दिनांक 31.03.2021 तक और भविष्य का ब्याज, खबें और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अघीन होगा। उषारकर्ता(कोंग्र) का ध्यान एवट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपरियों के मुखत करने हेतु प्रमाण है: अवल सम्पत्तियों का विवरण अचल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति का वह समसत भाग एवं अंश जोकि (भूमि एवं भवन) क्षेत्रफल 135 वर्ग मी., प्लॉट जं. 130, सैकटर22बी, गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुमाष यादव पुत्र श्री फूल सिंह यादव के नाम पर है। वाईड पंजी. नं. 14139 दिनांकित 13.02.2003 दिनांक : 19.08.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत किया जाता है। тाधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक स्यात्ति के कर्जन्तर से गात्र) याधिकृत किया जाता है। परिं यादव के नाम पर है। वाईड पंजी. नं. 14139 दिनांकित 13.02.2003 दिनांक : 19.08.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत किया क के अनुसरण में] कर्म मात हो निदेन / अभिवेदन प्रजाव तेत. इंत्ट विंग, पंजाब राशय दिनंतिय न ते प्रायति के कार का वाहिए। याति के क्रिया वाहिए। याद के नाम पर है। वाईड पंजी. नं. 14139 दिनांकित 13.02.2003 दिनंक '19.08.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक याधित नहीं किया जाना चाहिए। याति के क्राया ना की कांत यत राजने राशय दुकलर्ता ' को प्राधिकृत वातरा साहत है (त्ली-110075 अथवा शाखा प्रावक, नई दिल्ली) याति के क्रम्यान को ग्राय के 116 के 15 दिन के भीतर प्राप्त हो जाना चा वहिए। यदि हमें आपको कोई निवेदन /अभिवेदन या ते हो ता है तो यह समझा जाएगा की आपको हुयाना के प्रयुत्तर में आपको कोई निवेदन /अभिवेदन या ते हो ता है तो यह समझा जाएगा को आपको हुयाना के प्रयुत्त रस साकते है ते अनुसरण या तिवेदन / उसिवेत का रागत बाओ सूचना के क्रुछ ता तही होता है तो यह समझा जाएगा की आपको इंत्या मोत के प्रयत के के संबंध में अपने बचाव मे कुछ के स्वात को प्रत
सौ अख्सठ और पैसे दस मात्र) दिनांक 31.03.2021 तक और भविष्य का ब्याज, खर्च और अन्य प्रमार इत्यादि सहित के अधीन होगा। जिंद. या प्रमार इत्यादि सहित के अधीन होगा। खारकर्ता(ओ) का ध्यान एवट की धारा 13 की उप धारा (a). के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित प्रसिंप्ततियों के मुक्त करने हेतु उपनलब समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। जिंद. या प्रमार इत्यादि सहित के अधीन होगा। जिंद. या प्रमार इत्यादि सहित के अधीन होगा। जयते के प्रांत मुरक्त प्रसिंप्ततियों के मुक्त करने हेतु प्रमाण हैं: जयते के प्रांत मुरक्त के प्रांत है कि खाते में यूक / यूको की घटना / घटनाएं हुई हैं जो कि साधाय है तथा जन्य के साथ उपरोतत अचल सम्पत्तियों का विवरण अचल सम्पत्तियों का विवरण कर्ज करी से, प्रांत सुरक्ति के युव्व नही के सनता: ऋण की मंजूरी के समय स्पर स्व ता की गढ़ का वा कर्ज ता कर युव्व साधन कर. 1.12 करांद श्री माहक वा वा कर्ज, ते साथ ता प्राधि क त्रात है कि खाते में यूक / यूको की धनता घटना / घटनाएं हुई हैं जो कि साध्रय है तथा जन्य के साथ उपरोतत जपर उपरोतत अचल सम्पत्तियों का विवरण अचल सम्पत्ति के प्रांत सुरक्त कर के बिया पांती के मंक साक करांक है का प्रांत श्रे करांक हो । यह त्रात है कि क्वांत श्रे करां अपरंदर, युकाने की क्षमता होने के वावजुद, बैंक की बकाया राशि जानवूझकर तत्र सांत है कि क्वांत श्रे प्रांतर, युवकने के समत साहत है, समिति के राय दे आप सहीति के उपरोत्त कारण बताने हें विवरण निमानुता विवरण निमानु सहस करते है कि आप यहते हैं, समिति के राय घोषित नही किया जाना चाहिए। यहकर्जा को प्रांत स्वां प्रांत कर सकते हैं कि आपको 'साश्य य युवकर्जा' क्यां घोषित नही किया जाना चाहिए। जा रही यं या सनित ' अभिवेदन / अभिवेदन / अभिवेदन / अभिवेदन / अस्व से आप को कोई निवेदन / अभिवेदन या के प्रांत के 15 दिन के भीतर प्रांत से राजन, नई दिल्ली ना 10005 अधा साखा प्रबंक, नई तिल्ली नं स्मय में अपने नही कहना है । यह समझा जाएगा के प्रांत हो या ल, जाको में अपने बचाव में कुपन नही कहना है ।
ymrt scale Rifer ab sulling to the sum of
utRxiufnair à yacn port êg gureau समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। 392 साधन रू. 1.13 करोड़ और गारंटर, श्री आकाश शर्मा के युद्ध साधन रू. 1.22 करोड़ हैं। कर्जवार 392 साधन रू. 1.13 करोड, और गारंटर, श्री आकाश शर्मा के युद्ध साधन रू. 1.22 करोड, हैं। कर्जवार 392 साधन रू. 1.13 करोड, और गारंटर, श्री आकाश शर्मा के युद्ध साधन रू. 1.22 करोड, हैं। कर्जवार 392 साधन रू. 1.13 करोड, और गारंटर, श्री आकाश शर्मा के युद्ध साधन रू. 1.22 करोड, हैं। कर्जवार 392 साधन रू. 1.13 करोड, और गारंटर, श्री आकाश शर्मा के युद्ध साधन रू. 1.22 करोड, हैं। कर्जवार 392 साधन रू. 1.13 करोड, और गारंटर, श्री आकाश शर्मा के युद्ध साधन रू. 1.22 करोड, हैं। वर्जवा भी कर रहा है। यह 392 सुर्थ का विक्तृत विवरण निम्म ने कर्जवा के काया राशि जानबुझकर 392 सुर्थ का विक्तृत विवरण निम्म ने कर्जवा के काया राशि जानबुझकर 392 सुर्थ का विक्तृत विवरण निम्म ने कर्जवा के काया राशि जानबुझकर 392 सुर्थ का विक्तृत विवरण निम्म ने करते हैं, आप, यदि रे कर्जवा काया राशि जानबुझकर 392 सुर्थ का विक्तृत विवरण निम्म ने कर्ज हैं. आप यारे राग वा तही हैं ति नियेदन / अनिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपको 'साधय 392 सुर्थ का विक्तृत विवरण निम्म ने कर्ज कर सकते हैं कि आपका 'साध्र युक्त करां' क्या धोधी नहीं किया जाना चाहिए। 3020-5 पित्रां कर प्राव कर माम र हे वाई प्र साम र 20 करे अनुसरण में] प्राविकृत निये प्राव के ने कर्म राज करां प्रते कर सकते हैं कि आपका वाई नियं न / अनिवेदन / अनिवेदन / अनिवेदन प्रतत्त कर सकते हैं कि आपका ने कर्म कर ने देवल्ली 3020-5 प्राव कर माम र 119 करा दा प्र प्राव कर स्राव कर सकते हैं कि आपका वाई ने करा करां कर संख में अपने करां में आप ते करां करां करां कर संख में अपने करां संस मं अपने करां सं आप ते करां करां करां करां करां करां करां करां
अखल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि (भूमि एवं भवन) क्षेत्रफल 135 वर्ग मी., प्लॉट नं. 813ए, सैक्टर–22–बी, गुरुग्नग्राम, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुभाष यादव पुत्र श्री फूल सिंह यादव के नाम पर है। वाईड पंजी. नं. 14139 दिनांकित 13.02.2003 दिनांक : 19.08.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक फार्म नं. आईएनसी–28 [कम्पनी नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] केन्द्रीय सरकार–क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नहीं दिल्ली के समक्ष भाष्य प्राध के अनुसरण में] केन्द्रीय सरकार–क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नहीं दिल्ली के समक्ष क्षम्पत्ती के समक्ष क्षम्पती के 15 दिन के ग्रीतर प्राप्त हो जाना चाहिए। यहि हमें आपका कोई निवेदन/अभिवेदन शार्फ तर्व के प्राप्त निरम्म, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] केन्द्रीय सरकार–क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नहीं तकहना है। क्षमक्ष क्षमां नाट कर कि उपरोक्त निकर कारण बताओ सूचना के प्रयुक्त रंग आपके निवेदन/अभिवेदन के अनुसरण माध्यम क्षम्पती के 15 दिन के ग्रीतर प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि हमें आपका कोई निवेदन/अभिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि आपको के प्रवेदन ने अनुसरण माध्यम क्ष्म्या नोट कर के उपरोक्त कारण बताओ सूचना के प्रयुक्तर में आपके निवेदन/अभिवेदन के अनुसरण
अचल सम्पत्तियों को विषरण समरत भाग एवं अंश जोकि (भूमि एवं भवन) क्षेत्रफल 135 वर्ग मी., प्लॉट नं. सापति का वह समसत भाग एवं अंश जोकि (भूमि एवं भवन) क्षेत्रफल 135 वर्ग मी., प्लॉट नं. 813ए, सैक्टर–22–बी, गुरूड्राम, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति क्षे सुमाध यादव पुत्र श्री फूल (संह यादव के नाम पर है। वाईह पंजी. नं. 14139 दिनांकित 13.02.2003 दिनांक : 19.08.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक एकर्कती वियाध वीपति के उपरोक्त निकर्कद (संदे के अपके ते का या दारी) जान वृंड्रकर त्रांत वं ते प्राधिकृत महसूस करते हैं. आप, यदि ऐसा चाहते हैं. समिति के एकर्कती वियाध वीपति के उपरोक्त निकर्कद थे प्रीहित महसूस करते हैं. आप, यदि ऐसा चाहते हैं. समिति के प्रादा के नाम पर है। वाईह पंजी. नं. 14139 दिनांकित 13.02.2003 (देनांक : 19.08.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक प्राप्त के ते प्राप्त के ते का प्राध के के अनुसरण में] एकर्कती वियाध वीपति के 15 दिन अपीते ते एप स्प्र तरां राज, नं. दिल्ली एकर्मा नी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] के नदी य सरकार–होत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नही देल्ली के समक्ष के दिल्ली के समक्ष
813ए, सैक्टर-22-बी, गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुभाष यादव पुत्र श्री फूल यदि आप समिति' के उपरोक्त निष्कर्ष से पीड़ित महसूस करते हैं. आप, यदि ऐसा चाहते हैं. समिति के आ १६। सिंह यादव के नाम पर है। वाईड पंजी. नं. 14139 दिनांकित 13.02.2003 यदि आप समिति' के उपरोक्त निष्कर्ष से पीड़ित महसूस करते हैं. आप, यदि ऐसा चाहते हैं. समिति के 2020-7 दिनांक : 19.08.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक श्राफ तर्या घोषित नहीं किया जाना चाहिए। 2020-7 हम आपका निवेदन / अभिवेदन, उप महाप्रबंधक, एसएएसटीआरए डिवीजन, तृतीय तल, इंस्ट विंग, पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 अथवा शाखा प्रबंधक, नई दिल्ली ऑफ इं एकम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] सार्था ता ने के प्रधान कार्यालय, सेक्टर नहीं ते यह समझा जाएगा कि आपका के 15 दिन के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि हमें आपका कोई निवेदन / अभिवेदन भाष्यम कन्द्रीय सरकार-होत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष नहीं दिल्ली के समक्ष कर्म्यना कृपया नो टेक एसऐस ते यह होता है ते यह कारा काराएग वताओ सूचना के प्रयुक्त र मं आपके निवेदन / अभिवेदन करम्पनी
सिंह यादव के नाम पर है। वाईड पंजी. नं. 14139 दिनांकित 13.02.2003 2020-7 दिनांक : 19.08.2021, स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक प्रकल्ठती वयों पोपित नहीं किया जाना चाहिए। हमें आपका निवेदन / अमिवेदन, एसएएसटीआरए डिवीजन, तृतीय तल, इंस्ट विंग, पंजाब नैशनल बैंक एककर्ता वयों पोपित नहीं किया जाना चाहिए। हमें आपका निवेदन / अमिवेदन, एसएएसटीआरए डिवीजन, तृतीय तल, इंस्ट विंग, पंजाब नैशनल बैंक एककर्ता वयों पोपित नहीं किया जाना चाहिए। हमें आपका निवेदन / अमिवेदन, एसएएसटीआरए डिवीजन, तृतीय तल, इंस्ट विंग, पंजाब नैशनल बैंक एकपर्ग (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] सिंह तल्दी के समक्ष केन्द्रीय सरकार–क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि आपका इं समिति के निष्ठ्र के अनुसरण नहीं कहना है। कृत्या नाटक के समक्ष
पि पाये पाये पाये पाये पाये पाये पाये पाये
हम आपको निवदन / आमेवदन, उप महाप्रबचक, एसएएसटोआएए डिवीजन, तृतीय तत, इस्ट विग, पजाब तैशनल बैठ, प्रधान कार्यालय, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110005 अधवा शाखा प्रबंधक, नई दिल्ली किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नहीं कहना है। कृपया नोट करें कि उपरोक्त कारण बताओ सूचना के प्रयुक्तर में आपके निवेदन / अमिवेदन के अनुसरण
फार्म नं. आईएनसी–28 [कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] केन्द्रीय सरकार–क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष क्षित्रे के समक्ष नई किल्ली के समक्ष
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नहीं कहना है। कृपया नोट करें कि उपरोक्त कारण बताओ सूचना के प्रयुक्तर में आपके निवेदन / अभिवेदन के अनुसरण कम्पनी
केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष नहीं कहना है । कृपया नोट करें कि उपरोक्त कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में आपके निवेदन / अभिवेदन के अनुसरण
नई दिल्ली के समक्ष कृपया नोट करें कि उपरोक्त कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में आपके निवेदन / अभिवेदन के अनुसरण
नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले के माध्य
और कार्यवाही प्रतिशंहरित की जाती है ।
एएसजी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड (सीआईएन: यू45201एचआर 2005पीटीसी साशय चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति के सदस्य रिमोट ई
082384) जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, डीएलएफ गेटवे टावर, डीएलएफ हस्ता. /- हस्ता. /- हस्ता. /- को ई-र
साइवर सिटी, फंज- ।। ।, गुडगॉव-122002, हरियाणा में हैं के मामले में (ज्योति रंजन रथ) (राजीव खेड़ा) (अज्ञेय कुमार आजाद) नेट में
आवेदक/याचिकाकर्ता महाप्रबंधक (शास्त्र) महाप्रबंधक कार्यपालक निदेशक के माध्य
नोटिस पंजीकर
एतदद्वारा जनसामान्य को सचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम्. 2013 की
र्धरेश्वर्थ जनगानाय को सूमरो किया जाता हो के कम्पनी ने कम्पनी जातानाय र 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के ADVITIYA TRADE INDIA LIMITED a) भौति
लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक त्रिण्ड केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक Read, Office: 2814/6, Ground Floor, Chuna Mandi, Pahargani, New Delhi- 110055
E-mail ID: goyals2729@gmail.com Website: www.advitiyatrade.co
पंजीकृत कार्यालय को "हरियाणा राज्य" से "गुजरात राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गण्य :
गया। Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वे इसका कारण देते हुए आपनि इलफनामा में जल्लेख करते हुए जिसमें जनके ny has on Monday, August 23, 2021 completed the dispatch of the postal ballot notice, along with
हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत
the records of depository participants as on Priday, August 20, 2021 and through physical mode,
क्यानी को इसके पंजीकन कार्यात्वय में निम्बलियिन पूर्व प्रप्र रहा रहा रहा है 14 by postal ballot, including voting by electronic means or, for the following matter:
Conservation of the Departuring of the Departuring
No. Description of the Resolution जेए हाल
Cancel of the and constraint and constraints Use of the and constraints 23 अगस्त 2021 एएसजी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड स्थान: नई दिल्ली ने Increase In Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment
Image: construction of the and the second of the secon
Characterization एएसजी रियलकॉन प्राईवेट लिभिटेड स्थानः नई दिल्ली, Description of the Resolution जेए हार केए हार 23 अगरत 2021 स्थानः नई दिल्ली, एएसजी रियलकॉन प्राईवेट लिभिटेड हि0/- अरूण कुमार पुप्ता अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 Increase In Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. जेए हार
Characterization एएसाजी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड रथानः नई दिल्ली, Description of the Resolution जेए हार भे 23 अगरत 2021 रथानः नई दिल्ली, एएसाजी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड खर/– अरूण कुमार पुप्ता अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बी–10/17, क्रिष्णा नगर, Increase in Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. जेए हार केए हार 1
Image: construction of the second constructing construction of the second construction of the sec
Characterization एएसाजी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड ह0/- अरूण कुमार पुप्ता अधिकृत इस्ताहारकतां बी-10/17, क्रिणा नगर, दिल्ली-110051 Description of the Resolution जेए हार 1 23 अगस्त 2021 स्थानः नई दिल्ली, एएसाजी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड ह0/- अरूण कुमार पुप्ता अधिकृत इस्ताहारकतां बी-10/17, क्रिणा नगर, दिल्ली-110051 Increase in Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. जेए हार भ्यानः 1 2 To Consider Issue Of Bonus Shares 3 To Approve Name Change Of The Company स्थानः 3 स्थानः 1 प्रेष्ट वस्ती, प्रेण्ड कुमार पुप्ता वस्त्री अधिकरण-I, दिल्ली, प्रेण्ड कुमार पुप्ता क्रिण वस्तुर Bubaktor I, दिल्ली, जेए हार 1 केए हार 1 केए हार 1
(and) is the water for the description of the Resolution Description of the Resolution 23 अगरत 2021 स्थानः नई दिल्ली, एएसजी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड ह0/- अरूण कुमार युप्ता अधिकृत हस्ताहरकता बी-10/17, क्रिण्णा नगर, दिल्ली-110051 Increase in Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. जेए हार अप हा 2 To Consider Issue Of Bonus Shares 3 To Approve Name Change Of The Company स्थान : 3 To Approve Name Change Of The Company स्थान : 1 तिथि : 1 स्थान : 2 To Consider Issue Of Bonus Shares स्थान : 3 To Approve Name Change Of The Company तिथि : 2 स्थान : 3 To Approve Name Change Of The Company तिथि : 2 स्थान : 3 ति the company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the voting through postal ballot shall commence from Wednesday September 22, 2021 (06:00 PM)and for electronic mode voting shall commence from स्थान : 3
Item Description of the Resolution 23 अगरत्त 2021 स्थानः नई दिल्ली, एएसाजी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड ह0/- अरूण कुमार पुप्त अधिकृत हस्ताक्षरकतां बी-10/17, क्रिष्णा नगर, दिल्ली-110051 Increase in Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. Increase in Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. Increase in Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. Increase in Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting through postal Bolits shall commence from Wednesday September 22, 2021 (05:00 PM)and for electronic mode voting shall commence from Unesday. 24th , August 2021 and shall end on Wednesday September 22, 2021 (05:00 PM). The Board of Directors has anonymitted MK, MPM & 6, Co. Company Secretarias as the and of Directors has anonymitted MK. MPM & 6, Co. Company Secretarias as the section of Directors has anonymitted MK. MPM & 6, Company Secretarias as the section of Directors has anonymitted MK. MPM & 6, Company Secretarias as the section of Directors has anonymitted MK. MPM & 6, Company Secretarias as the section of Directors has anonymitted MK. MPM & 6, Company Secretarias as the section of Directors has anonymitted MK. MKM & 6, Company Secretarias as the section of Directors has anonymitted MK. MKM & Con Secretarias has the formation of the MKMM & Con Secretarias has the formatin the forecompany of Directors has anonymitted MK. MKM & Con Sec
Item Description of the Resolution 23 अगरत 2021 सथानः नई दिल्ली, एएसाजी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड ह0/- अरूण कुमार पुप्ता अधिकृत हस्ताप्तरफ्र बी-10/17, क्रिष्णा नगर, दिल्ली-110051 Increase in Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. 2 To Consider Issue Of Bonus Shares 3 To Approve Name Change Of The Company स्थान : 1 Real of the Resolution 3 To Approve Name Change Of The Company Members are requested to note that the voting through postal ballots shall commence from Tuesday, 24th August 2021 and shall end on Wednesday September 22, 2021 (05:00 PM) and for electronic mode voting shall commence from Tuesday, 24th , August 2021 and shall end on Wednesday September 22, 2021 (05:00 PM) and for electronic mode voting shall commence from Tuesday, 24th , August 2021 and shall end on Wednesday September 22, 2021 (05:00 PM) and for electronic mode voting shall commence from Tuesday, 24th , August 2021 and shall end on Wednesday September 22, 2021 (05:00 PM) and for electronic mode voting shall commence from Tuesday, 24th , August 2021 and shall end on Wednesday September 22, 2021 (05:00 PM). The Board of Directors has appointed M's. KMPM & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot'-ostal Ballot's process in a fair and transparent manner.
शासा कार्य राज कार्य क
(Instruction of the Resolution अस् पांचा प्राईवेट लिमिटेंड छ0/- अरूण वृमार प्रायं अधिकृत हरराप्तारकतां बी-10/17, क्रिणा नगर, दिल्ली-110051 Description of the Resolution (Instrument of the terms of terms of the terms of terms of the terms of terms o
Item Description of the Resolution 23 अगरत 2021 स्थानः नई दिल्ली, एएसजी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड ह0/- अरूण कुगार पुप्त अधिकृत इस्तावरकता बी-10/17, क्रिण्णा नगर, दिल्ली-110051 Increase in Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. Image: Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. 2 To Consider Issue Of Bonus Shares 3 To Approve Name Change Of The Company Reverse of Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Company 3 To Approve Name Change Of The Company The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the voting through postal ballot shall commence from Tuesday, 24th August 2021 and shall end on Wechesday September 22, 2021 (05:00 PM). The Board of Directors has appointed Ws. KMPM & Co., company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot'evoting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot'evoting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that voting on the aforesaid desolution done through evoting/postal ballot forms after the aforesaid date shall not be considered valid.
Item Description of the Resolution 23 अगरत 2021 एएसाजी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेंड ह0/- आरूण व्यसुली, अधिकरण-I, दिल्ली, अरूण व्यसुली अधिकरण-I, दिल्ली, वी-10/17, क्रिणा नगए, दिल्ली-110051 Increase in Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. Image: Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. 2 To Consider Issue Of Bonus Shares Image: Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. Image: Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Company 3 To Approve Name Change Of The Company The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting through postal ballot shall commence from Tuesday, 24th August 2021 and shall end on Wednesday September 22, 2021 (05:00 PM). The Board of Directors has appointed M/s, KMPM & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer not later than 05:00 PM on Wednesday September 22, 2021. All members may kindly note that voting on the aforesaid resolution done through evoting/postal ballot forms after the a Bolto PM on wednesday September 22. 2021. All members may kindly note that voting on the aforesaid resolution done through evoting/postal ballot forms after the Bolto form may either send an email to or may evoting/postal ballot forms after the Bolto form may either send an email
Item Description of the Resolution 23 अगस्त 2021 स्थानः नई दिल्ली, एएसजी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड ह0/- अरूण कुगार पुप्ता अधिकृत इस्ताझरकतां बी-10/17, क्रिण्णा नगर, दिल्ली-110051 Increase In Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to The Capital Clause Of The Memorandum Of Association Of The Company. Image: Company Company. 2 To Consider Issue Of Bonus Shares 3 To Approve Name Change Of The Company Revere State Company. 2 To Consider Issue Of Bonus Shares 3 To Approve Name Change Of The Company The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the voting through postal ballot shall commence from Tuesday, 24th August 2021 and shall end on Wechesday September 22, 2021 (05:00 PM). The Board of Directors has appointed Ms. KMPM & Co., company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot's company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot's company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot's company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot's company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot's company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot's company Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot's company Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot's company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot's company considered value. Image: State Stat

The result of the voting by postal ballot will be announced on or before Friday September 24, 2021, at the registered office of the Company. The result will be displayed at the registered office



आईडीबीआई बैंक लि. रिटेल रिकवरी, ई-1, प्रथम तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055 फोन: 011-66083056, 66083055

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

निर्मिण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने मांग सूचना उनके नाम के समक्ष वर्णित तिथि को भेजकर ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारंटर को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था चंकि ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि ऋणधारक के नाम के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षर ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्दारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उनके नाम के समक्ष वर्णित राशि तथा उस पर आगे के ब्याज तथा चार्जेज के लिये आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

क्रम सं.	ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारंटर तथा सम्पत्ति के स्वामी का नाम	मांग सूचना तिथि	सांकेतिक कब्जा की तिथि	गिरवी सम्पत्ति का विवरण	धारा 13 (2) में वर्णित बकाया राशि
	श्री गौरव जुल्का (ऋणधारक) श्री बालकिशन जुल्का (सह-ऋणधारक) श्रीमती राधिका जुल्का (सह-ऋणधारक) तथा मै. जुल्का सन्स (सह-ऋणधारक)			पताः 1. सम्पत्ति # एम-84, बेस्मेन्ट तथा भूतल पर बाथरूम, ग्रेटर कैलाश II, दक्षिण दिल्ली-110019 पता 2: प्लॉट नं. एस-457, 2रा एवं 3रा तल, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048	50309969/- (रु. पांच करोड़ तीन लाख नौ हजार नौ सौ
r	21.08.2021 : नई दिल्ली	<u>.</u>			हस्ता∕- प्राधिकृत अधिकारी आईडीबीआई बैंक लि.

JAIPRAKASH



पंजीकृत कार्यालय :सेक्टर 128, नोएडा-201 304, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष : +91 (120) 2470800 नय :'जेए हाउस', 63, बसना लोक, वसना विहार, नई दिल्ली-110057 दूरभाष : +91(11) 49828500, फैक्स :26145389 वेबसाइट :www.jalindia.com, ई-मेल : jal.investor@jalindia.co.in

24वीं वार्षिक आम बैठक से सम्बन्धित सूचना

री के कारण कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, वरी, 2021 ('एमसीए परिपत्र') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों तथा वं विनिमय बोर्ड द्वारा परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन गएट्स लिमिटेड ('कम्पनी') की 24वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार,30 सितम्बर, 2021 को 12.00 बजे स (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जायेगी। वीएम के लिए, यह सुविधा एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य पर लेन–देन हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज एल) द्वारा प्रावधानित की जा रही है।

रेपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 सहित एजीएम की सूचना (वित्तीय विवरण, बोर्ड मे सम्बद्ध होने वाले अन्य अपेक्षित दस्तावेजों सहित) केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी –मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की वेबसाइट www.jalindia.com.स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के और भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की परिगणना 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी।

सचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर अपना मतदान करने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग -वोटिंग'') उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त कम्पनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम (''ई–वोटिंग'') गतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग हेतु तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध होगी।

वोटिंग के माध्यम से मतदान हेत लॉगिन विवरण सदस्यों को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। जिन सदस्यों प्त होता है अथवा जिनके ई–मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं वे एजीएम की सूचना में का अनुपालन करके लॉगिन विवरण सुजित कर सकते हैं। इसी लॉगिन विवरण का उपयोग वीसी/ओएवीएम एम में उपस्थित होने के लिए भी किया जा सकता है।

की रीति :

में शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई–मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं al.agm2020@jalindia.co.in पर ई–मेल द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति भेज दें :

ायो नं. तथा पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित निवेदन पत्र

गप्रमाणित प्रति तथा

के प्रमाण के रूप में कोई एक दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान प्रमाण–पत्र,

ाम में शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई–मेल अपने डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं डेपॉजिटरी के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकत/अपडेट करा लें।

5 कि वे एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी नोट, एजीएम में उपस्थित होने के निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम के माध्यम से मतदान की रीति ध्यानपूर्वक पढ़ लें। किसी सहायता के लिए कृपया कम्पनी के सचिवीय विभाग नन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली–110057 के पास लिखें।



शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस के. लि. कॉर्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा) दूरभाष : 0124-4212530/31/32, ई-मेल : customercare@shubham.co वेबसाइट : www.shubham.co

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

री प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों वे उपयोग में शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (इसके पश्चात शुभम कहा जायेगा) का अधिकृत प्राधिकार्र होने के नाते कर्जदार से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हए एक माँग सचना निर्गत की थी।

असाधारण अ पंजीकृत कार गया | यदि किसी व्य हो, तो वे इ हित / विपक्ष फार्म दर्ज करें तल, पर्यावरण कम्पनी को इन (चौदह) दिनों 23 अगस्त 2

स्थानः नई f ओ.ए.न. 507/ पंजाब नेशनल

सेवा में, 1, श्री सोसायटी, राम वाश्र्नेय, निवा साथ हीः एनसीआर मोनार्क, जीएच-02/सी, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश-

(उ.प्र.) – 2010 शाहदरा, दिल्ली 201306 मा कि क मित आवेदक ने रु. 55 77 060 00 (रुपए प

एएसजी रि 082384) जि साइवर सिर्ट हस्ता. एतदुद्वारा जन धारा 13 के त लिए केंद्र स

<text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	Window" for trading in the shares of the Company as already intimated was remain	के लिए आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित	company are listed.	ऋणकर्ता हारा राशि के पनर्भगतान	में असफल	1 रहने के	कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य व	को एतहार
<text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text>		हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना						
<text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text>			Phase-I New Delhi-110020 email: info@skylinerta.com					
<text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>			By Order of the Board					
<text></text>			Sd/-					
<text></text>	By Order of the Board of Director			चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के	साथ किसी	ो प्रकार क	1 लेन–देन निम्नलिखित राशि तथा उस पर ब्याज के	लिए शुभग
<text></text>			Date: 23.08.2021 Managing Director	हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पन	ते लिमिटेड	के अभियो	ग का विषय होगा।	
<text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text>				प्रतिभत आस्तियों को छडाने के स	म्बन्ध में उग	ग्लब्ध सम	य–सीमा के लिए कर्जदार का ध्यान अधिनियम की ध	ा रा 13 क
<text></text>								
<text></text>				51 2751 56 2 500 57 20056, 27 16 622 18 16 1005				
<text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text>				क्र. ऋण स./कजदार(रा), सहकजदार का मं			प्रातभूत आास्त	
<text><text><text><text></text></text></text></text>			JINDAL STAINLESS	TL 187	ખત સારા	ખત હાલ		
			जिन्हर रहेनरोग सिमिरेट		and a second	22-05-2021		. 19/08/202
			। जिन्दल स्टनलस लिमिट ङ	6. 6.				
						22-05-2021		19/08/202
 A. Construction of the section of solution of the section of the sectin of the section of the section of the s		*	पंजीकृत कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005 (हरियाणा)		10 10 I	22-05-2021		10/09/202
 MOD DOD LOUXAN TERMENT ALL AND AL		and a second representation of a second of a second s				22-03-2021		19/06/202
		विद्वान रजिस्ट्रार,	ई-मेल आईंसी : investorcare@lindaistainless.com, वेबसाइट : www.jsistainless.com			22-05-2021	प्लॉट नं ६ खसरा नं ४११ गाम दोयमी परगना हापड तहसील हापड	19/08/202
	In the matter of sub-section (4) of Section 13	डीआरटी-1, नई दिल्ली	कापारट आफिस : जिन्दल सटर, 12, भाकाजा कामा प्लस, नइ दिल्ला-119 066			22 00 2021		, 17/00/202
 Add a part of par				5. MOD 1501 033333,	रु.	22-05-2021	ग्राम-सईदपुर हुसैनपुर, दीलना, परगना जलालाबाद, तहसील-	19/08/202
ADD ADD ADD ADD ADD <th></th> <th>ई-मेलः drtdelhi-dfs@nic.in</th> <th>सदस्यों को 41वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना</th> <th>नसरुद्दीन, बिस्मिल्ला</th> <th></th> <th>annen netro ane estere</th> <th></th> <th></th>		ई-मेलः drtdelhi-dfs@nic.in	सदस्यों को 41वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना	नसरुद्दीन, बिस्मिल्ला		annen netro ane estere		
Circuit Interaction Limited bases Circuit Interaction Limited Bases<						22-05-2021		19/08/202
 	In the matter of Ploutos Quant Research	妃 कनाटका बंक लिमिटड					2	
 Jung ang Jung ang		सम्पूर्ण भारत में, आपका पारिवारिक बैंक				22-05-2021		, 19/08/202
Nuclei is newly gionn in Beginnergi			वार्षिक सामान्य सभा ("एजीएम") बृहस्पितिवार, 16 सितम्बर 2021 को सुबह 11.00 बजे				, ,	10/00/000
Name: Name: <th< th=""><th></th><th></th><th>वाडिया कान्फ्रेस ('वासा')/अन्य आडिया विजुअल माध्यमा ('आएवाएम') सुविधा क</th><th></th><th>1.102</th><th>22-05-2021</th><th></th><th>, 19/08/202</th></th<>			वाडिया कान्फ्रेस ('वासा')/अन्य आडिया विजुअल माध्यमा ('आएवाएम') सुविधा क		1.102	22-05-2021		, 19/08/202
make application 'bo 'bo Garard may application 'bo 'bo Garardd may application 'bo 'bo Garard may application 'bo 'bo Garardd may application 'bo Carardd may applicatio						22-05-2021		19/08/202
controlling update approximation							गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201301	
 minimulation of siteration of siteratio siteration of siteration of siteration of siteration of siter			अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 5 मई, 2020, ("एमसीए सर्कलर्स") तथा सेबी द्वारा जारी	10. 0GGN1607000005001171,	रु.	22-05-2021		19/08/202
Minimum of Association of the Company in terms on the start are non-terms of the specific and the company in terms of the specific and the company in terms of the specific and the company in terms of the specific and the company in terms of the specific and the company in the specific and the company			सर्कुलर 15 जनवरी. 2021 के साथ पठित सर्कुलर दिनांकित 12 मई. 2020 ("सेबी	सन्तोष, सन्ध्या	10,53,989/-			,
Company in terms of the Special Resolution passed in the Dara-outgoing and the					⊢			
Hasselling hassel at the Einer wither hasse miner de farse miner		के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कर्णाटका बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे	सदरस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गई है।			22-05-2021		19/08/202
 value days ally measure days measure days measure days			एमसीए सर्कुलर्स एवं सेबी सर्कुलर्स के अनुपालन में 41वीं एजीएम की सूचना और			22-05-2021		19/08/202
Company to change its registered offse Company to change its registered offse Caparity of the regi								
 Inomiter State of Hispanar To Be State of				13. 0MOD1611000005002976,	रु.	22-05-2021		19/08/202
App groups whose intenses: likely to be registered from the field of the proposed change of the proposed c				अफसाना, यूनस अंसारी	8,31,193/-		बस्ती, परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201206	5
affeddal by the proposed long of the polsate of the company the polsate of the p						22-05-2021		19/08/202
ingestand office of the Company may deliver effect on the MCA-T provide by an effect on the MCA-T provide by and the reserve table watch (www.nes.gov.in) by filing investor send by registred force causes the deliver, effect on causes the deliver, effect on the MCA-T provide by and the reserve table watch (www.lesindlations.com ver) durates in the file states in the reserve table watch (www.lesindlations.com ver) durates in the file states in the reserve table watch (www.lesindlations.com ver) durates in the file states in the reserve table watch (www.lesindlations.com ver) durates in the file states in the reserve table watch (www.lesindlations.com ver) durates in the file states in the reserve table watch (www.lesindlations.com ver) durates in the file states (www.lesindlations.com ver) durates in the file states (www.lesi								
 Udeliver attilder and in dire Arbeit and ausgeste and and ausgeste attilder ausgeste ausgeste attilder ausgeste ausgeste attilder ausgeste ausg	registered office of the Company may					22-05-2021		. 19/08/202
Signifiant from fracture Signaft from frac		है जहां है'', तथा ''जो कुछ भी वहां है'' तथा ''जो भी जैसा है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।		6		22-05-2021		19/08/202
sand by registered post of his / her objections supported by an affadar stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the registered post of his / her interest and grounds of opposition to the registered post of his / her interest and grounds of opposition to the registered post of his / her interest and grounds of opposition to the registered post of his / her interest and grounds of opposition to the registered post of his / her interest and grounds of opposition to the registered post into day at registered post of his / her interest and grounds of opposition to the registered post into apposition to the reg								
objections supported by an affdarti value at fauture 12 should the there is a fauture			कम्पनी की वेबसाइट www.jslstainless.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट	17. 0REW1708000005007638,	रु.	22-05-2021	मकान नं. 104, वाका लाल डोरा में, ग्राम असदपुर खेड़ा, तहसील एवं	19/08/202
stang the nature of nis / ner mitterest and the second sec	objections supported by an affidavit			सुरेन्द्र कुमार, विद्या देवी	8,09,133/-		जिला- झज्झर, हरियाणा-124146	
Director, Northern Beglon, at -2 wing, 2nd mind and server age. Values device and mark reluit on mark reluit o						22-05-2021		Ť 19/08/202
Floor, Paryavaran Bhawan, GGO Complex, my Import 1400 (with 200 m) (with 200					and the state of the second of			
New Delhi-110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company atting registered office at the address mentioned below: ^{10,7} / ⁽²⁾ / ²⁾ / ⁽²⁾ / ⁽²						22-05-2021		19/08/202
Thom the date of publication of this holdsand this holdsand the serve at and bitat with a copy of the applicant commany sithat wit	New Delhi-110003 within fourteen days		करना चाहते हैं और / या ई—वोटिंग सहित वीसी / ओवीएएम सुविधा के माध्यम से 41वीं	6	28 28	22-05-2021		10/09/202
Will a clopy of the applicant company at log(str. at quen ais answare, due to the address mentioned below: private Limited Regd. Office: Plot No. 7, Sector 44, Gurugram, Haryan-122003 For and on behalf of the Applicant ASSHAY HARLAKA Date: 24.08.2021 Director Place: Gurugram(str. at quen ais assessment to explicit at the address mentioned the address mentioned investorcare@indalstainless.com ut viti "families in the address mentioned below: a stricting transmin and humps (back the set set set set set set set set set se						22-03-2021		, 19/06/202
below: Ploutos Quant Research Capital Private Limited Regd. Office: Plot No. 7, Sector 44, Gurugram, Haryana-122003 For and on behalf of the Applicant ASSHAY HARLAKA Date: 24.08.2021 Director Place: Gurugram DIN: 07875639				~		22-05-2021	मकान नं, 36. वाका मौजा रघनाथपर, लाल डोरा, तहसील	19/08/202
Private Limited Regd. Office: Plot No. 7, Sector 44, Gurugram, Haryana-122003 For and on behalf of the Applicant ASSHAY HARLALKA Date: 24.08.2021 www.karnatakbank.com पर शीर्ष "(aga) के Reit Predia utker=(14gen] 14/19), elker (14gen] 14/1								
Private Limited Regd. Office: Plot No. 7, Sector 44, Gurugram, Haryana-1220034:-inemit (astrater is 1:00 avà sut, tà 1:00 avà			जार रायरप के पंजावृही पता की समयन करने पाल किसा परेशायल की साथ इस्ताक्षरित			22-05-2021		- 19/08/202
Inegal. Onlice. 10 ft.00.7, GoldsOptionTo fail 1 stagestageand/a fail andstageand/a fail andstageand/a fail andstageand/a fail andstageand/a fail andstageand/a fail andstageand/a fail andand/a fail		ई-नीलामी का संचालन 15.09.2021 को 12.00 बजे अप. से 1.00 बजे अप. तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ		10.0 40.4 Decret 0 40.00 10 40				,
For and on behalf of the Applicant AASHAY HARLALKA Date: 24.08.2021 Image: a state in the in the state in the stat						22-05-2021		, 19/08/202
AASHAY HARLALKA Date: 24.08.2021 Info@bankauctions.in से ई-गीलामी (अनुमानतः 14.09.2021 को) पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। कणांटका वैंक लि. के लिये स्थान : नई दिल्ली (नवनीत रघुवंशी) Date: 24.08.2021 Director Place: Gurugram fif@: 23.08.2021 स्थान: दिल्ली (नवनीत रघुवंशी)			ई—मेल पता पंजीकृत करें। कते जिल्लान करेनलेज जिल्हान	राष्ट्रल कुमार, इराश चन्द, ।बट्टू कुमार	0, 12, 194/-			L
Date: 24.08.2021 Director Director The first and the first				स्थान ः गुरुग्राम				
				तिथि : 23.08.2021			शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस क	रुम्पनी लि
	Piace: Gurugram DIN: 078/5639	। ताथः 23.08.2021 स्थानः । दल्ला मुख्य प्रबंधक एव प्राधिकृत आधकारा 		L				
					1			